

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



JUNGLE CAMPS INDIA LIMITED

CIN: U55101DL2002PLC116282

THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE") SHALL BE WITH EFFECT FROM TUESDAY, DECEMBER 17, 2024



Scan this QR Code to view the Prospectus

Our Company was originally incorporated as "Pench Jungle Resorts Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated July 22, 2002, issued by the Registrar of Companies, Delhi. Subsequently, the name of our Company was changed to "Jungle Camps India Private Limited" pursuant to shareholders resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on January 02, 2024. A fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Delhi on February 15, 2024. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to shareholders resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on April 23, 2024, and the name of our Company was changed to "Jungle Camps India Limited". A fresh Certificate of Incorporation consequent upon Conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Delhi on June 13, 2024. The Corporate Identification Number of our Company is U55101DL2002PLC116282. For details of change in registered office of our Company, please refer to chapter titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 204 of Prospectus.

Registered office: 221-222/9, 2nd Floor, Som Dutt Chamber-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, India | Telephone: 011-41749354 | E-mail: legal@junglecampsindia.com | Website: www.junglecampsindia.com;

Contact Person: Ms. Parul Shekhawat, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. GAJENDRA SINGH, MS. LAXMI RATHORE, MR. YASHOVARDHAN RATHORE, MR. RANVIJAY SINGH RATHORE AND G S RATHORE HUF

ISSUE WAS MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (SME PLATFORM).

Our company has filed Prospectus dated December 12, 2024 with Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. The Equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (SME Platform) and trading will commence on Tuesday, December 17, 2024.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 40,86,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 72/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 62/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2942.21 LAKHS ("ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 2,04,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 147.46 LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE 26.37% AND 25.05%, RESPECTIVELY, OF THE POST-ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH.

RISKS TO INVESTORS

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The Book Running Lead Manager (BRLM) associated with the Issue has handled 08 (Eight) public SME issues and 02 (Two) Main Board Issues in the past three years out of which none of the Issues closed below the Issue Price on Listing date.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)*
1.	Mr. Gajendra Singh	35,14,441	7.04
2.	Mr. Laxmi Rathore	22,87,860	4.84
3.	Ms. Yashovardhan Rathore	14,70,384	5.31
4.	Mr. Ranvijay Singh Rathore	9,46,450	4.75
5.	GS Rathore (HUF)	6,66,368	3.13

*The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters has been calculated by taking into account the amount paid by them to acquire shares as reduced by the amount received on sell of shares i.e., net of sale consideration is divided by net quantity of shares acquired.

- Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last one (1) year preceding the date of RHP	34.55*
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last eighteen (18) months preceding the date of RHP	35.00*
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last three (3) years preceding the date of RHP	39.85*

* While calculation Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions, the effect of bonus shares is not taken.

BID / ISSUE PROGRAMME ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, DECEMBER 09, 2024
BID/ISSUE OPENED ON: TUESDAY, DECEMBER 10, 2024
BID/ISSUE CLOSED ON: THURSDAY DECEMBER 12, 2024

ISSUE PRICE: ₹ 72/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 72/- PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 7.2 TIMES OF THE FACE VALUE

This Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 335 of the Prospectus.

The Company received 4 Anchor Investor Application Forms from 4 Anchor Investors (including Nil mutual funds through Nil Mutual Fund schemes) for 12,48,000 Equity Shares. 4 Anchor Investors through Anchor Investor Application Forms were allocated 11,63,200 Equity Shares at a price of ₹72/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 837.50 Lakhs.

After removing multiple and duplicate bids, bids (UPI Mandates) not accepted by investors / blocked, bids rejected under application banked but bid not registered and valid rejections cases from the "Bid Book", the Issue was subscribed 455.20 times (excluding the Anchor Investor Portion).

Detail of the Applications Received:

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NO OF EQUITY SHARES	RESERVED
Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Portion)	82	15,35,82,400	7,37,600
Retail Individual Investors	4,59,590	73,53,44,000	13,60,000
Non-Institutional Bidders	23,509	44,14,17,600	5,82,400
Market Maker	1	2,04,800	2,04,800
Mutual Fund	1	1,04,000	38,400
TOTAL	4,83,183	1,33,06,52,800	29,23,200

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid Prices is as under:

Sr. no	Price	No of application	Sum quantity	Cumulative share	Percentage%
1	68.00	331	5,71,200	5,71,200	0.04
2	69.00	33	54,400	54,400	0.00
3	70.00	110	2,12,800	2,12,800	0.02
4	71.00	61	1,08,800	1,08,800	0.01
5	72.00	1,73,459	83,75,07,200	83,75,07,200	61.93
6	CUT OFF	3,21,209	51,39,34,400	51,39,34,400	38.00
Total	4,95,203	1,35,23,88,800	1,35,23,88,800	1,35,23,88,800	100.00

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on December 13, 2024

- 1) Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 72.00 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 540.69 times i.e., for 73,53,44,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 13,60,000 Equity Shares to 850 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant Before Rounding off	Allocation per Applicant After Rounding off	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	1600	459590	100.00	735344000	100.00	1360000	3	1600	85	45959	1360000
Grand Total	459590	100.00	735344000	100.00	1360000					1360000	

- 2) Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue Price of ₹ 72.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 757.93 times i.e., for 44,14,17,600 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 5,82,400 Equity Shares to 353 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	3200	15416	65.57	49331200	11.18	65087	1	376	65600
2	4800	1439	6.12	6907200	1.56	9113	6	1439	9600
3	6400	1471	6.26	9414400	2.13	12421	8	1471	12800

4	8000	585	2.49	4680000	1.06	6175	4	585	6400
5	9600	218	0.93	2092800	0.47	2761	1	109	3200
6	11200	166	0.71	1859200	0.42	2453	1	83	3200
7	12800	435	1.85	5568000	1.26	7346	1	87	8000
8	14400	1386	5.90	19958400	4.52	26333	8	693	25600
9	16000	649	2.76	10384000	2.35	13700	9	649	14400
10	17600	151	0.64	2657600	0.60	3506	2	151	3200
11	19200	46	0.20	883200	0.20	1165	1	46	1600
12	20800	52	0.22	1081600	0.25	1427	1	52	1600
13	22400	46	0.20	1030400	0.23	1359	1	46	1600
14	24000	81	0.34	1944000	0.44	2565	2	81	3200
15	25600	46	0.20	1177600	0.27	1554	1	46	1600
16	27200	48	0.20	1305600	0.30	1723	1	48	1600
17	28800	67	0.28	1929600	0.44	2546	2	67	3200
18	30400	20	0.09	608000	0.14	802	1	20	1600
19	32000	115	0.49	3680000	0.83	4855	3	115	4800
20	33600	36	0.15	1209600	0.27	1596	1	36	1600
21	35200	19	0.08	668800	0.15	882	1	19	1600
22	36800	11	0.05	404800	0.09	534	0	1	0
23	38400	10	0.04	384000	0.09	507	0	1	0
24	40000	51	0.22	2040000	0.46	2692	2	51	3200
25	41600	25	0.11	1040000	0.24	1372	1	25	1600
26	43200	17	0.07	734400	0.17	969	1	17	1600
27	44800	15	0.06	672000	0.15	887	1	15	1600
28	46400	7	0.03	324800	0.07	429	0	1	0
29	48000	37	0.16	1776000	0.40	2343	1	37	1600
30	49600	10	0.04	496000	0.11	654	0	1	0
31	51200	11	0.05	563200	0.13	743	0	1	0
32	52800	1	0.00	52800	0.01	70	0	1	0
33	54400	14	0.06	761600	0.17	1005	1	14	1600
34	56000	19	0.08	1064000	0.24	1404	1	19	1600
35	57600	6	0.03	345600	0.08	456	0	1	0
36	59200	5	0.02	296000	0.07	391	0	1	0
37	60800	5	0.02	304000	0.07	401	0	1	0
38	62400	8	0.03	499200	0.11	659	0	1	0
39	64000	26	0.11	1664000	0.38	2195	1	26	1600
40	65600	22	0.09	1443200	0.33	1904	1	22	1600
41	67200	6	0.03	403200	0.09	532	0	1	0
42	68800	10	0.04	688000	0.16	908	1	10	1600
43	70400	14	0.06	985600	0.22	1300	1	14	1600
44	72000	12	0.05	864000	0.20	1140	1	12	1600
45	73600	5	0.02	368000	0.08	486	0	1	0
46	75200	2	0.01	150400	0.03	198	0	1	0
47	76800	5	0.02	384000	0.09	507	0	1	0
48	78400	4	0.02	313600	0.07	414	0	1	0
49	80000	44	0.19	3520000	0.80	4644	3	44	4800
50	81600	7	0.03	571200	0.13	754	0	1	0
51	83200	4	0.02	332800	0.08	439	0	1	0
52	84800	1	0.00	84800	0.02	112	0	1	0
53	86400	2	0.01	172800	0.04	228	0	1	0
54	88000	18	0.08	1584000	0.36	2090	1	18	1600
55	89600	3	0.01	268800	0.06	355	0	1	0
56	91200	1	0.00	91200	0.02	120	0	1	0
57	92800	1	0.00	92800	0.02	122	0	1	0
58	94400	3	0.01	283200	0.06	374	0	1	0
59	96000	12	0.05	1152000	0.26	1520	1	12	1600
60	97600	5	0.02	488000	0.11	644	0	1	0
61	99200	1	0.00	99200	0.02	131	0	1	0
62	100800	3	0.01	302400	0.07	399	0	1	0
63	102400	3	0.01	307200	0.07	405	0	1	0
64	104000	11	0.05	1144000	0.26	1509	1	11	1600
65	105600	2	0.01	211200	0.05	279	0	1	0
66	107200	9	0.04	964800	0.22	1273	1	9	1600
67	110400	1	0.00	110400	0.03	146	0	1	0
68	112000	7	0.03	784000	0.18	1034			

(Continued from previous page...)

108	200000	5	0.02	1000000	0.23	1319	1	5	1600
109	203200	1	0.00	203200	0.05	268	0	1	0
110	204800	9	0.04	1843200	0.42	2432	2	9	3200
111	208000	4	0.02	832000	0.19	1098	1	4	1600
112	209600	2	0.01	419200	0.09	553	0	1	0
113	211200	1	0.00	211200	0.05	279	0	1	0
114	212800	3	0.01	638400	0.14	842	1	3	1600
115	214400	3	0.01	643200	0.15	849	1	3	1600
116	216000	6	0.03	1296000	0.29	1710	1	6	1600
117	219200	3	0.01	876800	0.15	868	1	3	1600
118	220800	4	0.02	883200	0.20	1165	1	4	1600
119	224000	1	0.00	224000	0.05	296	0	1	0
120	227200	1	0.00	227200	0.05	300	0	1	0
121	228800	4	0.02	915200	0.21	1208	1	4	1600
122	240000	8	0.03	1920000	0.43	2533	1	4	3200
123	248000	1	0.00	248000	0.06	327	0	1	0
124	256000	1	0.00	256000	0.06	338	0	1	0
125	268800	1	0.00	268800	0.06	355	0	1	0
126	270400	3	0.01	811200	0.18	1070	1	3	1600
127	273600	1	0.00	273600	0.06	361	0	1	0
128	276800	3	0.01	830400	0.19	1096	1	3	1600
129	278400	8	0.03	2227200	0.50	2939	1	4	3200
130	280000	1	0.00	280000	0.06	369	0	1	0
131	286400	1	0.00	286400	0.06	378	0	1	0
132	288000	3	0.01	864000	0.20	1140	1	3	1600
133	294400	3	0.01	883200	0.20	1165	1	3	1600
134	299200	2	0.01	598400	0.14	790	0	1	0
135	302400	3	0.01	907200	0.21	1197	1	3	1600
136	305600	1	0.00	305600	0.07	403	0	1	0
137	308800	1	0.00	308800	0.07	407	0	1	0
138	310400	2	0.01	620800	0.14	819	1	2	1600
139	312000	1	0.00	312000	0.07	412	0	1	0
140	318400	1	0.00	318400	0.07	420	0	1	0
141	320000	10	0.04	3200000	0.72	4222	3	10	4800
142	321600	1	0.00	321600	0.07	424	0	1	0
143	323200	1	0.00	323200	0.07	426	0	1	0
144	328000	1	0.00	328000	0.07	433	0	1	0
145	336000	3	0.01	1008000	0.23	1330	1	3	1600
146	337600	1	0.00	337600	0.08	445	0	1	0
147	347200	2	0.01	694400	0.16	916	1	2	1600
148	360000	2	0.01	720000	0.16	950	1	2	1600
149	361600	2	0.01	723200	0.16	954	1	2	1600
150	366400	1	0.00	366400	0.08	483	0	1	0
151	371200	1	0.00	371200	0.08	490	0	1	0
152	382400	1	0.00	382400	0.09	505	0	1	0
153	384000	2	0.01	768000	0.17	1013	1	2	1600
154	385600	1	0.00	385600	0.09	509	0	1	0
155	398400	2	0.01	796800	0.18	1051	1	2	1600
156	400000	1	0.00	400000	0.09	528	0	1	0
157	401600	1	0.00	401600	0.09	530	0	1	0
158	417600	3	0.01	1252800	0.28	1653	1	3	1600
159	424000	3	0.01	1272000	0.29	1678	1	3	1600
160	457600	1	0.00	457600	0.10	604	0	1	0
161	480000	3	0.01	1440000	0.33	1900	1	3	1600
162	481600	1	0.00	481600	0.11	635	0	1	0
163	484800	1	0.00	484800	0.11	640	0	1	0
164	489600	1	0.00	489600	0.11	646	0	1	0
165	491200	1	0.00	491200	0.11	648	0	1	0
166	496000	3	0.01	1488000	0.34	1963	1	3	1600
167	504000	2	0.01	1008000	0.23	1330	1	2	1600
168	505600	1	0.00	505600	0.11	667	0	1	0
169	507200	1	0.00	507200	0.11	669	0	1	0
170	508800	1	0.00	508800	0.12	671	0	1	0
171	510400	1	0.00	510400	0.12	673	0	1	0
172	513600	3	0.01	1540800	0.35	2033	1	3	1600
173	515200	2	0.01	1030400	0.23	1359	1	2	1600
174	516800	1	0.00	516800	0.12	682	0	1	0
175	518400	1	0.00	518400	0.12	684	0	1	0
176	529600	1	0.00	529600	0.12	699	0	1	0
177	532800	1	0.00	532800	0.12	703	0	1	0
178	534400	2	0.01	1068800	0.24	1410	1	2	1600
179	555200	3	0.01	1665600	0.38	2198	1	3	1600
180	560000	2	0.01	1120000	0.25	1478	1	2	1600
181	579200	1	0.00	579200	0.13	764	0	1	0
182	584000	1	0.00	584000	0.13	771	0	1	0
183	588800	1	0.00	588800	0.13	777	0	1	0
184	596800	1	0.00	596800	0.14	787	0	1	0
185	609600	1	0.00	609600	0.14	804	1	1	1600
186	619200	3	0.01	1857600	0.42	2451	2	3	3200
187	622400	2	0.01	1244800	0.28	1642	1	2	1600
188	624000	5	0.02	3120000	0.71	4116	3	5	4800
189	628800	1	0.00	628800	0.14	830	1	1	1600
190	651200	1	0.00	651200	0.15	859	1	1	1600
191	667200	1	0.00	667200	0.15	880	1	1	1600
192	675200	1	0.00	675200	0.15	891	1	1	1600
193	676800	1	0.00	676800	0.15	893	1	1	1600
194	678400	3	0.01	2035200	0.46	2685	2	3	3200
195	683200	1	0.00	683200	0.15	901	1	1	1600
196	686400	1	0.00	686400	0.16	906	1	1	1600
197	689600	1	0.00	689600	0.16	910	1	1	1600
198	692800	1	0.00	692800	0.16	914	1	1	1600
199	694400	3	0.01	2083200	0.47	2749	2	3	3200
200	696000	1	0.00	696000	0.16	918	1	1	1600
201	697600	1	0.00	697600	0.16	920	1	1	1600
202	704000	1	0.00	704000	0.16	929	1	1	1600
203	720000	2	0.01	1440000	0.33	1900	1	2	1600
204	721600	1	0.00	721600	0.16	952	1	1	1600
205	723200	1	0.00	723200	0.16	954	1	1	1600
206	724800	1	0.00	724800	0.16	956	1	1	1600
207	729600	1	0.00	729600	0.17	963	1	1	1600
208	731200	1	0.00	731200	0.17	965	1	1	1600
209	736000	1	0.00	736000	0.17	971	1	1	1600
210	737600	1	0.00	737600	0.17	973	1	1	1600
211	739200	1	0.00	739200	0.17	975	1	1	1600
212	740800	1	0.00	740800	0.17	977	1	1	1600
213	745600	1	0.00	745600	0.17	984	1	1	1600
214	748800	1	0.00	748800	0.17	988	1	1	1600
215	753600	1	0.00	753600	0.17	994	1	1	1600
216	756800	1	0.00	756800	0.17	999	1	1	1600
217	763200	1	0.00	763200	0.17	1007	1	1	1600
218	766400	1	0.00	766400	0.17	1011	1	1	1600
219	769600	1	0.00	769600	0.17	1015	1	1	1600
220	772800	1	0.00	772800	0.18	1020	1	1	1600
221	774400	1	0.00	774400	0.18	1022	1	1	1600
222	779200	1	0.00	779200	0.18	1028	1	1	1600
223	780800	1	0.00	780800	0.18	1030	1	1	1600
224	785600	2	0.01	1571200	0.36	2073	1	2	1600
225	796800	1	0.00	796800	0.18	1051	1	1	1600
226	800000	2	0.01	1600000	0.36	2111	1	2	1600
227	801600	1	0.00	801600	0.18	1058	1	1	1600
228	803200	1	0.00	803200	0.18	1060	1	1	1600
229	819200	1	0.00	819200	0.19	1081	1	1	1600
230	832000	1	0.00	832000	0.19	1098	1	1	1600
231	833600	1	0.00	833600	0.19	1100	1	1	1600
232	840000	1	0.00	840000	0.19	1108	1	1	1600
233	848000	1	0.00	848000	0.19	1119	1	1	1600
234	857600	1	0.00	857600	0.19	1132	1	1	1600
235	860800	1	0.00	860800	0.20	1136	1	1	1600
236	870400	1	0.00	870400	0.20	1148	1	1	1600
237	873600	1	0.00	873600	0.20	1153	1	1	1600
238	878400	1	0.00	878400	0.20	1159	1	1	1600
239	891200	1	0.00	891200	0.20	1176	1	1	1600
240	915200	1	0.00	915200	0.21	1208	1	1	1600
241	950400	1	0.00	950400	0.22	1254	1	1	1600
242	955200	1	0.00	955200	0.22	1260	1	1	1600
243	960000	2	0.01	1920000	0.43	2533	1	1	3200
244	961600	1	0.00	961600	0.22	1269	1	1	1600
245	971200	1	0.00	971200	0.22	1281	1	1	1600

हर महीने 2100 रुपए देने का फैसला कर महिलाओं को सम्मान दिलाने काम कर रहे केजरीवाल- अखिलेश यादव

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित महिला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की बिगड़ौ कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। साथ ही, उन्होंने आप की सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के हित में किए जा रहे कामों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि देने की घोषणा करने के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि अरविंद

केजरीवाल ने यह फैसला कर महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पूरे देश की सरकार चलती है, लेकिन यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिल्लीवालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन उससे छिनकर केंद्र सरकार अपने पास रखा हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल का हीसला कम नहीं हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की माताएं अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को सम्मान सम्मान दिलाएंगी। जब हमारी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा? - अखिलेश यादव महिला अदालत कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी



के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से केंद्र सरकार चलती है, वहां महिलाओं के साथ यह घटनाएं दिल्ली में रो रही हैं। अगर दिल्ली का यह हाल है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। दिल्ली में केंद्र

सरकार का जो गृह मंत्रालय है, मुझे लगता है कि वह केवल नाम का है। वह जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को इकट्ठा करके आज दिल्ली की सरकार ने जो निर्भया को जिस तरह से याद किया है।

उसके लिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मुझे याद है जब दिल्ली में निर्भया घटना हुई थी तो न केवल दिल्ली के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जाग उठे। शायद एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए देश में ऐसा अदोलन कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर देश में कोने-कोने में हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार को अपना कानून था उसे बदलना पड़ा और ऐसा सख्त कानून बना, ऐसा सख्त फैसला लिया कि माताओं-बहनों को ऐसी सुरक्षा मिली कि उनके साथ कभी कोई घटना न हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय निर्भया की घटना हुई, उस समय में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली कि जिस बेटी

के साथ यह घटना हुई है वह उत्तर प्रदेश की है। और जब उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो मैं उसके घर और गांव गया था। जिस समय मैं उसके घर पहुंचा था, उस वक्त उसके पिता के साथ-साथ परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। उन लोगों ने जो-जो बातें रखी थीं, गांव में एक बहन की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई की बात रखी थी। उन्होंने आस-पास की माताओं-बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल बनाने की बात रखी थी। मैंने एक-एक फैसला उनके लिए लिया था। वो चीजें बन गईं। लेकिन मैं सता से बाहर चला गया। भाजपा की सरकार आ गई। वो दिन है और आज का दिन है, भाजपा के लोगों ने वहां पर मुड़कर भी नहीं देखा है।

भाजपा नेता झुग्गियों में दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते हैं, फिर लिस्ट बनाकर

वोट काटकर गरीबों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेते हैं झ सीएम आतिशी

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने झुग्गी-विरोधी भाजपा के दोहरे चरित्र का पदाफास किया। उन्होंने प्रेस-कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करते हुए कहा कि, भाजपा गरीबों से नफरत करती है; गरीबों को अपने पास भी नहीं देखना चाहती इसलिए पीएम के रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को पर्दे से ढँकवाया गया। उन्होंने कहा कि, भाजपा नेता झुग्गी प्रवास के नाम पर जिन झुग्गियों में जाते हैं, कुछ महीनों बाद उसे तुड़वा देते हैं। भाजपा नेता झुग्गियों में दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते हैं, फिर लिस्ट बनाकर वोट काटकर गरीबों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेते हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा झुग्गियों में सलवार-कमीज, शॉल गुंटा रही है लेकिन इससे 5 साल का गुजारा नहीं चलता, 5 साल का गुजारा अरविंद केजरीवाल जी के कामों से चलता है क्योंकि कोई एक नेता है जिसने हमेशा झुग्गी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। सीएम आतिशी ने कहा कि, दिल्ली में झुग्गियों



में रहने वाले लोग भाजपा से सचेत रहे- ये आपको बरगलायेंगे और फिर धोखा देकर आपके वोट कटवाएंगे, आपकी झुग्गियाँ तुड़वायेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि, पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेता दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं। लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली के झुग्गीवालों की चिंता करते हैं। लेकिन मैं दिल्ली की अलग-अलग झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों-बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि, वो भाजपा के इस दिखावे में न आए क्योंकि झुग्गीवालों की लेकर भाजपा की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। गरीब-झुग्गी विरोधी भाजपा की पहली सच्चाई-भाजपा नेता झुग्गी प्रवास के

नाम पर जिन झुग्गियों में जाते हैं, कुछ महीनों बाद उसे तुड़वा देते हैं सीएम आतिशी ने साझा किया कि, सबसे पहले जिस जिस झुग्गी में भाजपा के नेता जाते हैं, रात बिताते हैं। कुछ महीनों बाद उस झुग्गी को तोड़ने पहुंच जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। सुंदर नर्सरी की झुग्गियों में भाजपा के लोग इसी तरह प्रवास करने गए। वहाँ बच्चों के साथ लुडो-कैरम खेलते हुए फोटो खिंचवाईं, सोशल मीडिया पोस्ट किए। और उसी के कुछ महीने बाद कड़ाके की सर्दी में कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर सुंदर नगर की झुग्गियों को तोड़ दिया। कड़ाके की ठंड में जब बच्चों की परीक्षा चल रही थी, परिवारों के पास रहने की जगह नहीं थी लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने

उन झुग्गियों को तोड़ दिया जहाँ वो कुछ महीने पहले प्रवास करने गए थे। गरीब-झुग्गी विरोधी भाजपा की दूसरी सच्चाई- भाजपा के लोग झुग्गियों में जाकर लिस्ट बनाते हैं और लोगों के वोट कटवाते हैं उन्होंने कहा कि, जब भाजपा इन झुग्गियों में जाती है तो झुग्गीवालों की लिस्ट बनाती है। और उस लिस्ट के जिन जिन लोगों के नाम लिखती है, उनके वोट कटवाने का काम करती है। हममें ये शाहदरा के अंबेडकर बस्ती में देखा। कुछ दिनों पहले अंबेडकर बस्ती के कई लोग हमारे पार्टी ऑफिस आए थे। गरीब-झुग्गी विरोधी भाजपा की तीसरी सच्चाई- गरीबों को अपने पास भी नहीं देखना चाहती भाजपा इसलिए पीएम के रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को पर्दे से ढँकवाया सीएम आतिशी ने साझा किया कि, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा इंटरेक्ट्यूट में एक कार्यक्रम के लिए गए। उस रास्ते में कुछ झुग्गियाँ पड़ी तो भाजपा की केंद्र सरकार ने उन झुग्गियों को पर्दे से ढँक दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। 17-20 के दौरान भी भाजपा ने झुग्गियों को ढँक दिया था, बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए थे ताकि झुग्गी के लोग बाहर न आ सके।

जंगपुरा से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने हरि नगर आश्रम में अपने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन



नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मनीष सिसोदिया ने अपना चुनाव कार्यालय हरि नगर आश्रम में खोला है जो भूमिया माता मंदिर के पास है। चुनाव कार्यालय से ही अब उनके चुनाव प्रचार से संबंधित सारी गतिविधियाँ संचाली जाएंगी। मनीष सिसोदिया अपने कार्यालय में रोजाना बैठेंगे और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनसे बात करेंगे, उनका समस्याएं जानेंगे। साथ ही, विधानसभा क्षेत्र में वह पार्टी कार्यकर्ताओं और वालंटियर्स

के साथ जनसंपर्क करेंगे। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमने दस साल में काम किए हैं। हमारे पास हमारे काम हैं। दिल्ली के लिए एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में काम करने के लिए एक बहुत शानदार पढ़ी लिखी और समझदार लोगों की टीम है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल के रूप में एक विजनेरी, शार्प और हिम्मती नेता हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, जिसके पास न तो है, न टीम है, न एजेंडा है और न कोई उम्मीद है, हम सब अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

केजरीवाल ने ऑटो चालकों से किये वादों को

पूरा नहीं किया : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऑटो चालकों से किये वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ऑटो चालकों के परिवार की चिंता भाजपा विधायक करेंगे। सचदेवा सोमवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में ऑटो वाले चालकों के साथ कार्यक्रम के दौरान मौजूद ऑटो चालकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) ने इतने वर्षों से ऑटो-चालकों का दमन किया है। दिल्ली के ऑटो वालों ने ठाना है कि अब वह प्रधचारी और निकम्मी आम आदमी पार्टी की

सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में करीब एक लाख ऑटो चालक हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले निजामुद्दीन केजरीवाल के घर की चिंता भाजपा के विधायकों की होगी। भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल स्वयं शीशमहल में रहे लेकिन आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। यमुना की सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया गया। केजरीवाल के अहंकार के कारण दिल्ली के 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है लेकिन इसको लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।

दिवकत न हो। इसके बावजूद आज तक दिल्ली के ऑटोवालों को कोई सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, उस दिन दिल्ली के ऑटो चालकों के घर की चिंता भाजपा के विधायकों की होगी। भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल स्वयं शीशमहल में रहे लेकिन आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। यमुना की सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया गया। केजरीवाल के अहंकार के कारण दिल्ली के 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है लेकिन इसको लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।

1984 सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या

मामले में आठ जनवरी को फैसला आने की संभावना

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। दिल्ली की एक अदालत पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में संभवतः अगले साल आठ जनवरी को फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सोमवार को फैसला सुनाना था लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। न्यायाधीश ने कहा, आठ जनवरी अगली तारीख है। कुमार वर्तमान में तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के सम्मक्ष पेश हुए। यह मामला सिख-विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की कथित हत्या से जुड़ा है। अदालत ने एक नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की कथित रूप से कर दी गयी हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुरू में पंजाबी बाग थाने ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। इससे पहले अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध मामला बनता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक विशाल भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट एवं आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर हमला किया तथा उसके पति और बेटे की हत्या कर दी, सामान लूट लिया और उनके घर को आग लगा दी। कुमार के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया यह राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई थी कि कांग्रेस नेता कुमार इसमें न केवल शामिल रहे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था।

भाजपा झुग्गी में रहने वालों को अछूत मानती है : आतिशी

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा झुग्गी वालों के साथ मजक कर रही है। भाजपा झुग्गी वालों को अछूत मानती है। भाजपा वाले पहले झुग्गी में जाते हैं और बाद में उन्हीं झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाते हैं। भाजपा वाले झुग्गियों में जाकर लोगों के नाम और नंबर लेकर आते हैं और उनका वोट कटवा देते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कल पीएम मोदी द्वारा इंस्टीट्यूट के वॉर पर गए थे। इस दौरान केंद्र सरकार ने रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को कपड़े सुंदर नगरी की झुग्गी में बीजेपी नेता गए। वहां रुके थे। उनके साथ खाना खाया था। बच्चों के साथ गेम खेला। उसके तीन महीने बाद कोर्ट से ऑर्डर लेकर उस झुग्गी को तुड़वा दिया। उसके बाद बीजेपी वाले शाहदरा की अंबेडकर झुग्गियों में गए, उनके नंबर लिए और उसके बाद उनके वोट कटवा दिए। आतिशी ने झुग्गी वालों को सतर्क करते हुए कहा है कि



मोहल्ला क्लीनिक, सरकारी स्कूलों में अच्छे पढ़ाई, महिलाओं को मिलने वाले 2,100 रुपए से चलेगा। भाजपा वाले जिस झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं, वहां के लोग सावधान रहें क्योंकि, इससे पहले सुंदर नगरी की झुग्गी में बीजेपी नेता गए। वहां रुके थे। उनके साथ खाना खाया था। बच्चों के साथ गेम खेला। उसके तीन महीने बाद कोर्ट से ऑर्डर लेकर उस झुग्गी को तुड़वा दिया। उसके बाद बीजेपी वाले शाहदरा की अंबेडकर झुग्गियों में गए, उनके नंबर लिए और उसके बाद उनके वोट कटवा दिए। आतिशी ने झुग्गी वालों को सतर्क करते हुए कहा है कि

मैं झुग्गियों में रहने वाले भाई-बहनों से अपील करती हूँ कि उनके बहकावे में न आएं। कल भी बीजेपी वालों ने एक झुग्गी बस्ती में सूट सलवार दिए। कुछ दिन बाद वह पैसे भी बांटेंगे। मैं इन लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग इन लोगों से सबकुछ ले लो, लेकिन उनको वोट मत देना। झुग्गी-बस्ती में रहने वालों के साथ, दिल्ली के लोगों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल हैं। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है तब से वो झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को परिवार का हिस्सा मानते हैं।

मैट्रीमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं से टगी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। वेस्ट जिला पुलिस ने मैट्रीमोनियल साइट के जरिए सैकड़ों महिलाओं के साथ टगी करने वाला एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज के तौर पर हुई है। वेस्ट जिला के डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार पिछले महीने की 23 तारीख को वेस्ट जिले की साइबर टीम को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक महिला ने यह शिकायत दी थी कि मनोज नाम के व्यक्ति ने पहले अपनी बातों के जाल में फसाया और फिर शादी के लिए मुलाकात करने की बात कही। इस दौरान उसने अपनी बातों के जाल में फंसा कर महिला से बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल ले ली। फिर उसके जरिए उसने काफी पैसे भी निकाल लिए। इस शिकायत के बाद पुलिस टीम हस्तकत में आई और मनोज की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास करने लगी। इस बीच पुलिस ने उस महिला के अकाउंट से निकाले गए पैसे की बैंक डिटेल भी निकाल ली।



साथ ही सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक टीम बनाई गई। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नाथ ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में है। पुलिस ने वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मनोज ने चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी मनोज ने बताया कि शुरू में वह कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और 2017 में उसे मैट्रीमोनियल साइट बनाने का आईडिया आया। इसके बाद उसने मैट्रीमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाई और इसके जरिए अलग-अलग लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फांसने लगा। बड़ी कंपनी

का बताया था मैंनेजर मैट्रीमोनियल साइट पर बनाई गई प्रोफाइल में वह अपने आपको बड़ी कंपनी में मैनेजर बताते के साथ-साथ काफी सैलरी भी बताया था। इस बात में उसके जाल में लड़कियाँ और महिलाएं फंसी चली गईं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हरियाणा के पानीपत के रहने वाला है और उसकी उम्र महज 35 साल है। उसके पास से पांच डेबिट कार्ड और मोबाइल फोन मिले हैं, जिसमें काफी कुछ डिटेल है। साथ ही पुलिस यह पता लग रही है कि अब तक उसने कितनी महिलाओं के साथ टगी की है।

अरविंदो कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाना मेरी पहली प्राथमिकता: प्रो.चौधरी

● 1972 से स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है अरविंदो कॉलेज

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली,। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अरविंदो कॉलेज को लंबे अरसे यानी 11 साल बाद स्थायी प्रिसिपल के रूप में प्रो. अरुण चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला। नवनियुक्त प्रिसिपल प्रो.चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद स्टाफ एग्रेसिभ्शन ने शिक्षकों से मुलाकात कार्यक्रम के तहत शिक्षकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर मीडिया संयोजक डॉ.हंसराज सुमन, एग्रेसिभ्शन के पदाधिकारियों में प्रो. विनय कुमार सिंह, श्री विनय भारद्वाज, डॉ.अंजली अरोड़ा ,

प्रो. उत्पलम शननाज, डॉ.नरपत सिंह आदि भी उपस्थित थे। एग्रेसिभ्शन के अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार सिंह ने उनके सम्मक्ष शिक्षकों की कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। प्रो. सिंह ने एग्रेसिभ्शन की ओर से कॉलेज की नई बिल्डिंग की मांग रखी और बताया कि 1972 से स्कूल की बिल्डिंग में यह कॉलेज चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले उस समय के सभी कॉलेजों की नई बिल्डिंग बन गई है लेकिन पिछले 52 वर्षों से यह कॉलेज स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। नवनियुक्त प्रिसिपल प्रो.अरुण चौधरी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंदो कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाना मेरी प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत

1972 में बहुत से कॉलेज खोले गए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से वित्त प्रो.पैथिक सभी कॉलेजों की नई बिल्डिंग बन चुकी है और वे सही से चल रहे हैं। चिंता जाहिर करते हुए प्रो.चौधरी ने कहा कि इस कॉलेज की अभी तक नई बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? जबकि उस समय एक दर्जन से अधिक कॉलेज खोले गए थे और सभी की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, एक मात्र अरविंदो कॉलेज ही बचा है जबकि कॉलेज को जमीन आबंटित हुए काफी समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार व स्टाफ एग्रेसिभ्शन के साथ बैठकर बिल्डिंग के मेटर को जल्द ही समाधान निकालेंगे और कॉलेज को नई बिल्डिंग देने का वायदा

शिक्षा। प्रो.चौधरी ने कहा कि आप सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता तो कॉलेज को हम भारत के टॉप 10 कॉलेजों की श्रेणी में ला सकते हैं। साथ ही छात्रों के लिए करिअर की दृष्टि से रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की जाएगी ताकि इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद उन्हें रोजगार मिल सकें। कॉलेज के वरिष्ठ एग्रेसिभ्ट प्रोफेसर हंसराज सुमन ने शैक्षिक व गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की मांगें रखी और बताया उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर 100 से अधिक एडहॉक टीचर्स परमानेंट हुए हैं और ठीक उसकी तर्ज पर गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के पदों को भी भरा जाए। यहाँ 50 फीसदी कर्मचारी अस्थायी हैं। उन्होंने बताया है कि इन पदों के विज्ञापन निकाले जा चुके हैं उन्हें भी जल्द

से जल्द स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू करें। प्रो.चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की भाँति गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की भी प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीयू प्रशासन से मांग की जाएगी और जब भी सलेक्शन कमेटी या इंटरव्यू होगा तो उन्हें प्राथमिकता देकर परामर्श कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता में छात्र, कर्मचारी व शिक्षकों के हितों का रथाना रखना है। प्रो. चौधरी ने कहा कि हाल ही में स्थायी हुए शिक्षकों की समय पर कन्फर्मेशन लेटर देना व पदोन्नति करवाना, शिक्षकों को वरिष्ठता सूची तैयार करवाना, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम लाना व वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों को हर संभव मदद करना मेरी प्राथमिकता में है। उन्होंने

आगे कहा कि हम अपने छात्रों को अध्ययन संबंधी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आने देंगे। छात्रों के बिना शिक्षण संरचना का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए छात्रों को पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा। कॉलेज स्टाफ एग्रेसिभ्शन से कहा कि मैं प्रिसिपल बाद में हूँ पहले शिक्षक हूँ और एक शिक्षक की तरह मैं भी कक्षा लूंगा। प्रो.अरुण चौधरी ने कॉलेज की पुस्तकालय, प्रशंगशाळा कि, कैन्टीन, प्ले ग्राउंड आदि का दौरा किया। उसके बाद गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि नियुक्ति व पदोन्नति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही शिक्षकों को तैयार हो कर भरेंगे। साथ ही कहा है कि वे समय पर अपना काम करें, छात्रों को किसी तरह की दिक्कतें न आएँ।



जंगपुरा के सपनों को साकार करना लक्ष्य : मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



नई दिल्ली,। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पूरी पार्टी जैरशोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदले जाने के बाद जंगपुरा इलाके में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अब उन्होंने अपना कार्यालय खोलकर उसे जंगपुरा के भविष्य के सपनों को साकार करने का केंद्र बताया। मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पूजा-पाठ करके इस केंद्र का उद्घाटन किया। अब यहीं से मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए रणनीति बनाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, ह्आज जंगपुरा में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि जंगपुरा के भविष्य के सपनों को साकार करने का केंद्र होगा। वहां से हर बच्चे को शानदार शिक्षा सुनिश्चित करने, हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने और हर नागरिक को एक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रगतिशील जंगपुरा देने की दिशा में काम होगा। यह कार्यालय उस सोच का प्रतीक है, जहां हर जंगपुरावासी अपनी उम्मीदें और सपने लेकर आ सके। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह सफर जंगपुरा को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। ह्आ गौरतलब है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी सीटों पर च्यारदार प्रत्याशियों को बरल दिया है। साथ ही दूसरी पार्टी से आने वाले उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। मनीष सिसोदिया के पेटपड़गंज सीट को भी बदलकर उन्हें जंगपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव से पहले एक सर्वे करवाया था। जिसके मुताबिक उन्होंने इस बार कई सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल किया है।

कारतूस व तमंचा समेत पैरोल जंपर गिरफ्तार

नई दिल्ली,। शाहदरा जिला एसटीएफ ने रविवार को एक पैरोल जंपर अमन उर्फ भल्ला को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस को एक कारतूस लोडेड तमंचा मिला है। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि गत रविवार को एसटीएफ को एक टीम इलाके में पेट्रोलिंग पर थी। इसी बीच पुलिस को आरोपी अमन के बारे में गुप्त सूचना मिली। पता चला कि पैरोल जंपर, ताहिरपुर के पास अपने किसी गुं से मिलने आने वाला है। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में योजनाबद्ध तरीके से मौके पर छापा मारकर आरोपी अमन को तमंचा व लोडेड एक कारतूस समेत गिरफ्तार कर लिया। वह भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि वह हाल ही में रोहिणी अदालत के आदेश पर पैरोल पर बाहर आया था और गत रुक्नार को उसे आत्मसमर्पण करना था। लेकिन वह फरार हो गया। उसने बताया कि तमंचा व कारतूस उसने गाजियाबाद निवासी पम्पू से लिया था। पुलिस को पम्मी की तलाश है।

कुरुष्यात बदमाश को पुलिस ने दबोचा

नई दिल्ली,। आरके पुरम थाना पुलिस टीम ने 14 दिसंबर को बदरपुर थाने के घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल के पास से पुलिस ने मोबाइल और बाइक बजामद की है। आरोपी पर दिल्ली के अलग-अलग थानों में 21 मामले दर्ज हैं। गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अवैध शराब के साथ तस्क़र गिरफ्तार

नई दिल्ली,। द्वारका जिला पुलिस की एंटी ऑटो थैफ्ट स्क्वाड टीम ने 15 दिसंबर को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार के पास से 3000 क्वार्टर शराब और चीपिंग गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि इंसपेक्टर कमलेश कुमार, एएसआई विजय सिंह की टीम ने झरौदा इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है।

शराब तस्क़रों की गाड़ी जब्त

नई दिल्ली,। द्वारका जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 14 दिसंबर को अवैध शराब तस्करी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान से हरियाणा होते हुए अवैध शराब लेकर दिल्ली पहुंचे थे। आरोपियों अनिल कुमार और विक्रम शर्मा की गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस ने 3100 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गाड़ी भी जब्त कर ली है।

84 दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ अगले महीने आ सकता है फैसला

नई दिल्ली,। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अदालत अगले साल आठ जनवरी को फैसला सुना सकती है। राउत एवैन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने सोमवार को फैसला टाल दिया। तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की कथित हत्या से संबंधित है। अदालत ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने शुरू में यह मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने तपतीशर अपने हाथ में ले ली थी। मामले में अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया। उसके पति और बेटे की हत्या कर दी।

उत्तर रेलवे	
ई-निविदा सूचना	
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली एवं विभिन्न गूल/संशोधित बोलियों अंतिम तिथि एवं समय तक ही जमा कर सकेंगे। बोलियों केवल ऑनलाइन ही जमा की जायें हैं। इस निविदा के विरुद्ध मैन्युअल बोलियों/प्रस्तावों की अनुमति नहीं है, और पाच किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ई-निविदा प्रणाली में भाग लेने के लिए निविदादाता को भारतीय रेलवे ई-प्रोक्वास्टेंट सिस्टम आई.आर.ई.पी.एस. साइट यानि www.ireps.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए। आवश्यक परिवर्तन बुद्धि पत्र/परिशिष्ट यादि आवश्यक हो, केवल इसी वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।	
कार्य का नाम व स्थान	उत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली एवं विभिन्न गूल/संशोधित बोलियों अंतिम तिथि एवं समय तक ही जमा कर सकेंगे। बोलियों केवल ऑनलाइन ही जमा की जायें हैं। इस निविदा के विरुद्ध मैन्युअल बोलियों/प्रस्तावों की अनुमति नहीं है, और पाच किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ई-निविदा प्रणाली में भाग लेने के लिए निविदादाता को भारतीय रेलवे ई-प्रोक्वास्टेंट सिस्टम आई.आर.ई.पी.एस. साइट यानि www.ireps.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए। आवश्यक परिवर्तन बुद्धि पत्र/परिशिष्ट यादि आवश्यक हो, केवल इसी वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।
अनुमानित	

हरियाणा/अन्य राज्य

संक्षिप्त खबरें

छुड़ा पशु पकड़वाने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

हसनपुर। भाकियू शंकर गुट पदाधिकारियों ने सोमवार को एसडीएम सुनीता कुमारी को ज्ञापन सौंपा। छुड़ा पशुओं को पकड़वाने हुए गोशाला में संरक्षित करने की मांग की। पालतू पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर टीकाकरण कराने व उपचार कराने की जरूरत भी बताई।बिजली विभाग द्वारा संचालित ओटीएस योजना का लाभ सभी उपभोक्ताओं को देने व समय से बिल संशोधन कराए जाने की वकालत की। फसल सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने व खराब बिजली मीटर बदलवाने हुए चेक मीटर लगाए जाने की मांग भी उठाई। बताया कि आगामी 20 दिसंबर को पंचायत एसडीएम कार्यालय के सामने होगी, जिसमें बिजली, चकबंदी, नहर व पशुपालन समेत अन्य संबंधित सभी विभागों के अधिकारी पहुंचेंगे तो मौके पर ही समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। इस दौरान राकेश चौहान, हरि सिंह, राजपाल सिंह, मुनशाद अली आदि रहे।

नगर पालिका ने सब्जी मंडी में हटवाया अतिक्रमण

अमरोहा। शहर में कोट चौराहे से सब्जी मंडी तक किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने सोमवार को अभियान चलाया। ईंओ डा. बृजेश कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर ठेले, खोमचे और फड़ लगाकर किए गए 35 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण को हटवाया गया। दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दुकानदारों को दी गई। बताया कि जाम की समस्या से निपटने के लिए अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। शहर की सड़कों पर दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। अभिशासी अधिकारी डॉ बृजेश कुमार ने बताया कि पालिका का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

रेलकर्मों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

गाजियाबाद। विजयनगर थानाक्षेत्र में रहने वाले रेलकर्मों की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि रामपुरी कॉलोनी में रहने वाले अधेड़ का शव घर में पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान 58 वर्षीया रामसेवक मीणा के रूप में हुई रामसेवक मूलरूप से रामधन का पुरा थाना नादौती जिला करौली राजस्थान के रूप में हुई। पता चला कि रामसेवक रामपुरी कॉलोनी में किराए के मकान में अकेले में रहते थे और रेलवे विभाग दिल्ली में नौकरी करते थे। मौत का कारण पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।

ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत

गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में मनन धाम रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि सूचना पाकर मृतक युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का अंदेशा है। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गुलधर स्टेशन मास्टर द्वारा मनन धाम रेलवे फाटक के पास एक युवक के ट्रेन से कटकर मौत होने के संबंध में सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो मृतक की पहचान मनन चौधरी निवासी ओम प्रोपर्टी के पास मधुबन बापूधाम के रूप में हुई। एसीपी ने बताया कि करन ने आत्महत्या की है या वह हादसे का शिकार हुआ है, इसके बारे में जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई की जा रही है।

अधिवक्ता की कार से लैपटॉप और फाइल चोरी

गाजियाबाद। कौशांबी सेक्टर-14 के आशा पुष्प विहार में रहने वाले अधिवक्ता अमरीश चंद का कहना है कि वह 29 नवंबर को गाजियाबाद जिला न्यायालय में गए थे। विकास भवन के पीछे पार्किंग में उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी। काम खत्म करके वह गाड़ी लेकर घर चले गए। घर पहुंचने पर गाड़ी की पिछली सीट पर रखा लैपटॉप का बैग तथा एक फाइल गायब मिली। कौांबी खोजबांदी के बाद भी लैपटॉप तथा फाइल का कुछ पता नहीं चलता। घटना के संबंध में अमरीश चंद ने कविनगर थाने में शिकायत दी।

गुरुग्राम: 1971 की ऐतिहासिक विजय की वर्षगांठ पर शहीदों को किया याद

- विजय दिवस पर शहीदों को दी गई भावमयी श्रद्धांजलि**
- डीसी ने युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन**

प्रातः किरण संवाददाता

गुरुग्राम। वर्ष 1971 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की वर्षगांठ के अवसर विजय दिवस पर सोमवार को जिला प्रशासन, गुरुग्राम द्वारा वीर शहीदों को कृतज्ञता के भाव से याद किया गया। डीसी ने स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर स्थित युद्ध स्मारक पर सोमवार को पहुंच कर वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अजय कुमार ने कहा कि विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी वीर नायकों को नमन करते हैं जिन्होंने वर्ष 1971 युद्ध में निर्णायक जीत

गुरुग्राम में पब्लिक वेलफेयर मशीनों से मिलेंगे कपड़े के थैले

- पॉलीथीन मुक्त गुरुग्राम अभियान को गति देगी क्लॉथ बैग ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन**
- पॉलीथीन मुक्त गुरुग्राम सीएसआर के तहत प्रथम चरण में 10 स्थानों पर लगाई जा रही वेंडिंग मशीन**
- पॉलीथीन मुक्त गुरुग्राम पांच स्थानों पर स्थापित की जा चुकी हैं, मशीनें, शेष 5 पर इस सप्ताह हो जाएंगी स्थापित**

प्रातः किरण संवाददाता

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा आरएसपीएल वेलफेयर फाऊंडेशन के सहयोग से सीएसआर के तहत प्रथम चरण में 10 स्थानों पर वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। इनमें 5 स्थानों पर मशीनें स्थापित हो चुकी हैं, जबकि अन्य 5 स्थानों पर इस सप्ताह मशीनें स्थापित कर दी जाएंगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने कहा कि लैंग्थीन मुक्त गुरुग्राम अभियान को क्लॉथ बैग ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन और अधिक गति देने में सहायक सिद्ध होगी।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि पॉलीथीन के उपयोग को खत्म करने तथा नागरिकों को इस बारे में प्रेरित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम



सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की। उनका निस्वार्थ समर्पण और हृद्द सकल्प हमारे देश का गौरव हैं। यह दिन उनकी अदम्य वीरता और देशभक्ति को समर्पित है। उनका बलिदान सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह दिन भारतीय सेना के पराक्रम, बलिदान और साहस का प्रतीक है। विजय दिवस हमें स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने और एकजुट होकर देश

के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है। डीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वीर एवं शहीदों के स्वजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं।

जिला प्रशासन की ओर से भी समय-समय पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में शहीदों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने भी शहीदों को अपने

लेस पर मशीनों से मिलेंगे कपड़े के थैले



द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल में आरएसपीएल वेलफेयर फाऊंडेशन ने आगे बढ़क सहयोग दिया है। इसके तहत फाऊंडेशन ने अपने सीएसआर फंड के तहत 10 स्थानों पर क्लॉथ बैग ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पांच स्थानों नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय सेक्टर-34, शीतला माता मंदिर, व्यापार केंद्र पालम विहार, एबियंस मॉल व सनसिटी टाउनशिप सेक्टर-54 में मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। इस सप्ताह एमजीएफ मॉल, रेलरिया मार्केट, सुर्यात व्यापार केंद्र, सेक्टर-14 मार्केट, रेलवे स्टेशन तथा एरिया मॉल में मशीनों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेंडिंग मशीन से 10 रुपये की कीमत में कपड़े का थैला प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 10 रुपये का नोट या सिक्का मशीनें में डालना होता है।

रूपीआई के माध्यम से भी भुगतान करके वेंडिंग मशीन से थैला प्राप्त किया जा सकता है। एक मशीन में 500 थैले रखने की क्षमता है। अतिरिक्त निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे पॉलीथीन की बजाए कपड़े के थैले का उपयोग करें तथा पर्यावरण को बचाने के साथ ही अपने स्वास्थ्य को बचाने का भी काम करें। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 14 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में बुलंद आवाज वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से प्रदेश का पहला कपड़ा थैला बैंक भी स्थापित किया गया है, जिसमें 35 जल्दरतम महिलाएं कपड़े के थैले तैयार करके अपनी रोजी-रोटी भी चला रही हैं। कपड़ा थैला बैंक द्वारा अब तक 20 लाख से अधिक थैले वितरित किए हैं। एक अनुमान के अनुसार इससे लगभग एक करोड़ पॉलीथीन के उपयोग से निगम लगी है।

सनसिटी कॉलोनी में 20 मकान मालिकों पर दर्ज होगी एफआईआर, डीटीपी ने शुरू किया एक्शन

गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-54 स्थित सनसिटी कॉलोनी में 20 मकान मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपी ने 10 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दे दी है। सोमवार को 10 और मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी जाएगी। अगले सप्ताह दोबारा से इन मकानों को सील किया जाएगा। यदि दोबारा यह मकान मालिक सील तोड़ते हैं तो अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सनसिटी कॉलोनी में करीब 20 मकानों में नशे और कब्जा प्रमाण पत्र का उल्लंघन सर्वे में हुआ था। ओसी लेने के बाद किसी ने अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर लिया तो किसी ने पूरा कवर कर लिया था। इसके साथ-साथ इन इमारतों में पीजी और गेस्ट हाउस का संचालन भी नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा था। शिकायतों के आधार पर डीटीपीई कार्यालय ने इन मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। सही जवाब नहीं मिलने पर इन मकानों को सील कर दिया था। इन मकान मालिकों ने सील को तोड़कर दोबारा से कर्मशिवल एक्टिविटी को शुरू कर दिया। इस मामले में कॉलोनी में रहने वाले ने बताया कि मकान मालिक पिछले तीन साल से घरों के अंदर पीजी और गेस्ट हाउस का संचालन कर रहे हैं। कई बार इनके मकानों को सील किया जा चुका है, लेकिन ये फिर खोल लेते हैं। इस बार इन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त रवेया अपनाना चाहिए।

दो घरों के ताले तोड़ लाखों के नगदी-जेवर चुराए

गाजियाबाद। बेखौफ चोरों ने गोविंदपुरम जे-ब्लॉक तथा कविनगर एच-ब्लॉक में बंद घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के नगदी-जेवर तथा अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता लगने पर पीड़ितों ने कविनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर चोरों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। गोविंदपुरम जे-ब्लॉक में रहने वाली कंचन रावत का कहना है कि 15 दिसंबर को सुबह साढ़े 11 बजे पति तथा परिवार के साथ हंसराज कोठाले दिल्ली गई थीं। शाम करीब साढ़े चार बजे दिल्ली से वापस घर लौते तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरों और अलमारियों में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चेक करने पर पता चला कि अलमारी में रखे लाखों रुपये के जेवर, दस हजार रुपये तथा चांदी-कैश राउटर चोरी हो गया है। घटना के संबंध में कंचन रावत ने कविनगर थाने में शिकायत दी। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मामले में कविनगर एच-ब्लॉक में रहने वाले शरद कुमार गर्ग का कहना है कि कविनगर एच-ब्लॉक में भी उनका घर है, जो अक्सर बंद रहता है। नौ दिसंबर की सुबह साढ़े दस बजे उन्होंने मकान की सफाई के लिए कर्मचारी को भेजा था। वहां पहुंचकर कर्मचारी ने दूसरी और तीसरी मंजिल के ताले टूटे होने की सूचना दी।

गुरुग्राम: कर्मचारी की विधवा पत्नी को बकाया तनख्वाह जारी करने के निर्देश दिए समाधान शिविर में डीसी ने सुने 24 मामले छह का मौके पर किया निपटान

प्रातः किरण संवाददाता

गुरुग्राम। राजस्व विभाग के एक कर्मचारी की विधवा ने समाधान शिविर में गुहार लगाई कि उसे अपने पति के निधन के बाद नियमित रूप से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जिस पर तत्काल निर्देश दिए गए कि तहसीलदार कार्यालय गुरुग्राम से महिला को वेतन जारी किया जाए। लघु सचिवालय शिवागर में आयोजित समाधान शिविर में डीसी अजय कुमार ने 24 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से छह का मौके पर ही निपटारा कर दिया। बाकी शिकायतों में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पटवारी भूदेव शर्मा की पत्नी शारदा ने बताया कि उसके पति की एक



सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति के स्थान पर लाभार्थी के रूप में उसे विधवा के तौर पर हार महीने वेतन दिया जाता रहा है। पिछले पांच महीनों से उसे यह वेतन नहीं दिया जा रहा। इस पर डीसी ने तुरंत तहसीलदार कार्यालय को यह बकाया राशि देने और नियमित

रूप से तनख्वाह दिए जाने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में डीसी अजय कुमार के साथ एसडीएम रविंद्र कुमार व नगराधीश कुंवर आदित्य विक्रम भी मौजूद रहे। प्रजापत समाज ने मिट्टी पथने की भूमि पर कब्जे की शिकायत गांव भांगरोला निवासी ईश्वर सिंह

विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने किया शुभारंभ



मुरादाबाद। मुरादाबाद मण्डल के रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह द्वारा शुभारम्भ किया गया। जिसमें आज पहले दिन दो मैच खेले गये। पहला मैच विधुत (ओ पी) एवं विधुत (सामान्य) के मध्य तथा दूसरा मैच एस.एंड.टी.शाखा तथा कार्मिक शाखा के मध्य राजेंद्र शर्मा खेल सचिव के निर्देशन में 20 -- 20 ओवर के आयोजित किए गए। पहला मैच विधुत (ओ पी) की टीम ने दिनेश (मण्डल विधुत अभियन्ता/ओ.पी.) की कप्तानी में खेलते हुए आठ विकेट खोकर 20 ओवर में कुल 180 रन बनाये कर्णधुत (सामान्य) ने अंकित असवाल को कप्तानी में कुल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर

पारंपरिक तरीके से सलामी दी। इस अवसर पर सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के जिला कल्याण अधिकारी कर्नल (सेवानिवृत्त) अमन यादव, एक्स सर्विसमैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) संतलाल, हेड क्लर्क अजित सिंह, वेलफेयर ऑफिसर बलजीत सिंह, भूपेंद्र कुमार व मोहम्मद यूसुफ, कर्मबीर सिंह चौकीदार, वीरेंद्र व प्रकाश थापा, पुनीत अस्फाक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

ई-कॉमर्स कंपनी पर जुमाना लगाया

प्रातः किरण संवाददाता

गाजियाबाद । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर सात हजार का जुमाना लगाया है। अमेजन को 45 दिन के अंदर यह राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया गया है। कंपनी द्वारा भेजे गए डिब्बे में पींडित को मोबाइल की जगह सिर्फ चार्जर मिला था। कंपनी में शिकायत के बाद समाधान न होने पर पींडित ने वाद दायर किया था। आयोग ने अमेजोन को तय समय पर उपभोक्ता को राशि नहीं देने पर कुल राशि का छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया है। वैशाली निवासी पीयूष कटियार नवंबर 2018 को अमजेट के जरिए एक मोबाइल फोन बुक किया। इसके लिए उन्होंने सात हजार का भुगतान कर दिया। अमेजन कंपनी ने पीयूष कटियार के घर पर एक डिब्बे की डिलीवर किया। पीयूष ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में मोबाइल की जगह सिर्फ चार्जर लगा हुआ था। पीयूष ने कई बार अमेजन से शिकायत की, लेकिन अमेजन ने उनके मोबाइल नहीं दिया। पीयूष ने मई 2019 को उपभोक्ता आयोग से शिकायत की।

दिसंबर में पहली बार वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब

ट्रांस हिंडन। मौसम ने करवट ली तो सोमवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिसंबर में पहली बार गाजियाबाद का एक्वआई 300 के पर गया। सोमवार को एक्वआई 324 रहा, जबकि इंदिरापुरम सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका था। यहां का एक्वआई 400 के करीब पहुंच गया। प्रैप के मानकों का पालन न होने से स्थिति और खराब हो गई। यही कारण है कि दो दिन से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिसंबर में पहले 12 दिन प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली। अक्तूबर और नवंबर के मुकाबले वायु गुणवत्ता बेहतर थी क्योंकि लगातार मौसम भी साफ था। दो दिन से सुबह के समय कोहरा बढ़ने लगा। इसीलिए स्मॉग भी बढ़ रहा है। सोमवार को कोहरा और

किराना व्यापारी से 12 लाख की लूट में पुलिस के हाथ खाली

दिस हिंडन। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में किराना व्यापारी से हुई 12 लाख की लूट में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। करीब चार घाह की छानबीन के बाद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। इस कारण परिजनों में काफी निराशा है। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में छिनासी अंडपार्स में बाइक सवार चार बदमाशों ने विजय नगर निवासी अभिषेक अग्रवाल से 12 लाख की नकदी बरा बैग लूट लिया था। बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी कार रुकवाई और तमंचे दिखाकर कार का दरवाजा खुलवाया। कार की अगली सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर बदमाश हापुड़ की ओर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से रूट ट्रेस किया तो गाजियाबाद से हापुड़ होते हुए बदमाश बुलंदशहर जाते दिखे थे। बुलंदशहर और अलीगढ़ के बॉर्डर तक बदमाशों से उनकी फुटेज मिली थी। इसके आधार पर पुलिस बदमाशों के फोटो तैयार करा आसपास के इलाकों में कई दिन तक छानबीन की।

विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने किया शुभारंभ

प्रातः किरण संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद मण्डल के रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह द्वारा शुभारम्भ किया गया। जिसमें आज पहले दिन दो मैच खेले गये। पहला मैच विधुत (ओ पी) एवं विधुत (सामान्य) के मध्य तथा दूसरा मैच एस.एंड.टी.शाखा तथा कार्मिक शाखा के मध्य राजेंद्र शर्मा खेल सचिव के निर्देशन में 20 -- 20 ओवर के आयोजित किए गए। पहला मैच विधुत (ओ पी) की टीम ने दिनेश (मण्डल विधुत अभियन्ता/ओ.पी.) की कप्तानी में खेलते हुए आठ विकेट खोकर 20 ओवर में कुल 180 रन बनाये कर्णधुत (सामान्य) ने अंकित असवाल को कप्तानी में कुल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर

प्राप्त जानकारी के अनुसार मण्डल स्टेडियम मुरादाबाद मे 15.12.2024 को अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह द्वारा शुभारम्भ किया गया। अंतर विभागीय

युवाओं को सही मार्गदर्शन विश्व की जरूरत: शेफाली पांड्या

ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हुआ गायत्री परिवार का कार्यक्रम



प्रातः किरण संवाददाता

गुरुग्राम। गायत्री परिवार के तत्वावधान में शहर के ताऊ देवी लाले स्टेडियम में आयोजित हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण कार्यक्रम में युवाओं व महिलाओं की समस्याओं व समाधान पर विचार किया गया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार से जुड़ी और गायत्री विद्यापीठ की अध्यक्ष शेफाली पांड्या ने मार्ग दर्शन किया। इस मौके पर पूरे हरियाणा व दिल्ली एनसीआर से कई लोग पहुंचे थे।

मुख्य वक्ता शेफाली पांड्या ने कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या युवाओं का सही मार्ग दर्शन न होना है। युवा वर्ग दिशाहीन हो रहा है। नशे की लत से नई पीढ़ी अपना लक्ष्य खो रही है। विश्व शांति का हमारा प्रयास हमेशा से रहा है। ऐसे में नशे की लत युवाओं को बिगाड़ रही है। इस लत को देखते हुए हमने नशे के खिलाफ आठवां आंदोलन जारी किया है। नई पीढ़ी को ठीक करने का जिम्मा माता के ऊपर है। मां चाहे तो बच्चों को शुरू से ही

क्रिकेट टूर्नामेंट में मुरादाबाद रेल मण्डल के सभी विभागों की क्रिकेट टीमों प्रतिभाएं कर रही हैं क सोमवार को इस टूर्नामेंट के प्रथम दिवस पर दो मैच खेले गए। जिसमें पहला मैच विधुत (ओ पी) एवं विधुत (सामान्य) के मध्य तथा दूसरा मैच एस.एंड.टी.शाखा तथा कार्मिक शाखा के मध्य राजेंद्र शर्मा खेल सचिव के निर्देशन में 20 -- 20 ओवर के आयोजित किए गए। पहला मैच विधुत (ओ पी) की टीम ने दिनेश (मण्डल विधुत अभियन्ता/ओ.पी.) की कप्तानी में खेलते हुए आठ विकेट खोकर 20 ओवर में कुल 180 रन बनाये कर्णधुत (सामान्य) ने अंकित असवाल को कप्तानी में कुल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर

प्राप्त जानकारी के अनुसार मण्डल स्टेडियम मुरादाबाद मे 15.12.2024 को अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह द्वारा शुभारम्भ किया गया। अंतर विभागीय

165 रन बनाये क मैच में विधुत (ओ पी) की टीम ने विजय की कविधुत (ओ पी) की तरफ से बैटिंग करते हुए अनुज ने 50 गेंदों में 9 चौके एवं 01 छक्के की सहायता से 81 रन बनाकर *मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मैच एस एंड टी शाखा एवं िर्मिक शाखा के मध्य 20-20 ओवर का खेला गया। मैच में एस एंड टी शाखा ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर कुल 287 रन बनाये। कार्मिक शाखा ने मात्र 11.1 ओवर में कुल 69 रन ही बना सके। एस एंड टी शाखा ने मैच में विजय प्राप्त की कमैन ऑफ द मैच एस एंड टी शाखा के शुभम कुमार रहे। जिन्होंने 43 गेंदों में 12 चौकों तथा 08 छक्कों की सहायता से 123 रन बनाए।

एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से धुआं निकलने से अफरातफरी मची

प्रातः किरण संवाददाता

देवरिया । छपरा से मथुरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में सवार यात्रियों में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कोच से अचानक धुआं निकलने लगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, ब्रेक जाम होने के कारण कोच से धुआं निकला था जिसे तुरंत ही दुरुस्त कर दिया गया। यह घटना गौरी बाजार और बैतालपुर रेलवे स्टेशन के बीच मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में हुई। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन को रोक दिया गया और गार्ड व चालक ने समस्या का तुरंत समाधान कर दिया। इसके बाद ट्रेन करीब 30 मिनट की देरी से अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। गौरी बाजार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर भरत कुमार ने बताया, एक कोच में धुआं निकलने की सूचना मिलने पर ट्रेन को रोक दिया गया और चालक तथा गाार्ड ने जाम हुए ब्रेक को ठीक किया, जिससे धुआं निकल रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने बताया, ब्रेक के ठीक से काम करने की पुष्टि करने के बाद ट्रेन को करीब आधे घंटे की देरी से रवाना किया गया। सन्हा मंहगाई के विरोध में साइकिल चलाते हुये सदन पहुंचे।

तालाब की भूमि पर हो रहे निर्माण को रोक

प्रातः किरण संवाददाता

गाजियाबाद। डूंडाहेड़ा में सरकारी जमीन पर बन रहे मकान का निर्माण कार्य महापौर ने बंद करवाया।उन्होंने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई कराई। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि डूंडाहेड़ा गांव में स्थित राजस्व अभिलेख में तालाब की भूमि दर्ज है। यह मोहल्ला सेना विहार गली नंबर चार के आखिर में है। तालाब पर कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा कर मकान बना रहे थे। इसकी शिकायत मिली थी। इस पर सज्ञान लेकर निगम अधिकारियों से वार्ता कर संपत्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर मकान का काम बंद करवाया। साथ ही दस्तावेज देखे गए। महापौर ने बताया कि निगम की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा करने वालों पर सख्ती की जाएगी। महापौर ने बताया कि कई जगह जमीन पर कब्जा कर लिया है। सभी जगह से जमीन कब्जामुक्त कराई जाएगी। पूर्व में कई जगह जमीन खाली कराई है। जमीन खाली करने के बाद चारदीवारी या तारबंदी कराई जाए

जन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करके त्वरित समाधान किया जाए सुनिश्चित: डा. बलप्रीत सिंह

- सोमवार को 13 जन शिकायतों की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त निगमायुक्त ने दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश**

प्रातः किरण संवाददाता

नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारी जन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करके त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। वे सोमवार को नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे।

समाधान शिविर में अतिरिक्त निगमायुक्त के साथ 13 शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायतों की सुनवाई के दौरान डा. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे

प्राप्टी टैक्स, सीवरेज, सफाई से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा जन शिकायतों के समाधान में समय लगना है, उनकी समस्याओं निर्धारित करके एर्टीमेट व टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि निगम भूमि पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण पर कार्रवाई ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जाए। निगम भूमि को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही उसकी चारदीवारी या फेसिंग करकर उसे सुरक्षित किया जाए, ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना होने पाए।

दौरान अतिरिक्त निगमायुक्त ने संबंधित सहायक अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत नोटिस जारी करें तथा निगमनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि निगम भूमि पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण पर कार्रवाई ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जाए। निगम भूमि को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही उसकी चारदीवारी या फेसिंग करकर उसे सुरक्षित किया जाए, ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना होने पाए।

18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती पर विशेष: मानवता समानता का संदेश देने वाले संत गुरु घासीदास

छत्तीसगढ़ के संतो में बाबा गुरु घासीदास का नाम सबसे प्रथमतः आता है। इस धरती ने अपने गर्भ से अनेक संतों को जन्म दिया है, जिनमें बाबा घासीदास महारथों में से एक है। बाबा घासीदास का जन्म बलौदा बाजार भाटापारा जिले के एक छोटे से ग्राम गिरीघपुरी में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। बाबा जी सतनामी समाज के प्रणेता बन कर उभरे, इसीलिये गिरीघपुरी में प्रतिवर्ष मार्च में तीन दिनों का मेला लगता है, जो बाबाजी की याद एवं उनके आदर्शों को पुनः आत्मसात करने के लिये किया जाता है। बचपन में बालक घासीदास को घर में घसिया कहकर पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम महंमूददास तथा माता का नाम अमरौतिन बाई था। इस समय छत्तीसगढ़ प्रांत में मराठों का शासन था और जो अपने कर्तव्य पथ से भटक कर अराजकता की ओर भाग रहे थे। समाज पर इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा था, फलतः समाज का बड़ी तेजी से पतन हो रहा था। सामाजिक मूल्यों एवं संबंधों में गिरावट आ रही थी। वह छुआछूत और जात पात के बेड़ियों में जकड़ कर गिरती चली जा रही थी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में घासीदास ने समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने का बीड़ा उठाया। बाबाजी ने इसके लिये जगह-जगह लोगों को उच्च, सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिये संदेश देना प्रारंभ किया। बाबाजी बचपन से ही साधु प्रकृति के थे। वे साधु संतों के बीच में ही संगत करने का अवसर खोजते रहते। वे जब विवाह योग्य हुये तो इनके पिता ने इनका विवाह सारगढ़ के पास ग्राम सिरपुर के निवासी अंजोरीदास की पुत्री, सफुरा के साथ तय किया। पश्चात निश्चित तिथि को इनका विवाह, बड़े धूमधाम से सम्पन्न हो गया। बाद में इसी सफुरा को श्रद्धालुजन सफुरा माता के नाम से आदरसूचक संबोधन से पुकारना शुरू कर दिया था। बाबा जी अपने गृहस्थ कार्यों में भी ध्यान देने लगे। इसी कार्य को संपन्न करने हेतु पिता द्वारा वे अपने खेत भेजे गये। जहां फसल उगाने के लिये खेत की जुलाई करनी थी। तब कहते हैं गुरुघासीदास ने वहां हल की मूठ पकड़े बिना ही सारा खेत जोत दिया था। एक झोपड़ी में निवासरत गुरुघासीदास को जगन्नाथपुरी की तीर्थयात्रा का अवसर आया था। तब वे अपने भाई के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वे रास्ते से ही वापस लौट आये। और गिरीघपुरी से एक मील दूर के पहाड़ी पर घौरा (ऑंवला) पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गये। वहीं घासीदास को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ईश्वर को सीधा संपर्क एवं दर्शन प्राप्त हुये। बाबाजी ने अपने विचारों को अनपढ़ तथा दबे कुचले लोगों के आत्म सम्मान एवं उन्नति के लिये उन्हें सात सूत्रों से बद्ध संदेश प्रदान किया। जो सतनाम पंथ के प्रमुख सात सिद्धांतों के नाम से आज भी जारी हैं। वे सिद्धांत निम्न हैं। (1) सतनाम पर विश्वास रखो। (2) मूर्तिपूजा मत करो। (3) जाति भेद के प्रपंच में न पड़ो (4) मांसाहार मत करो। (5) शराब मत पियो। (6) अपराह्न में खेत मत जोतो (7) पर स्त्री को माता समझो। हो ललना धन्य अमरौतिन तोर भाग्य। सोहर पद गावत है, दान पुण्य होवत है अपार आनंद मंगल मान्य, सोहर पद गावत है। बाबाजी के जन्मोत्सव में उक्त गीत गाकर उत्साहपूर्वक श्रद्धालुगण उन्हें स्मरण करते हैं। गिरीघपुरी में प्रतिवर्ष मार्च को तीन दिनों का मेला भरता है।

राज्यसभा के समापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस

यदि अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है, तो इससे संसदीय कार्यवाही में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपात की धारणा के परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शत्रुतापूर्ण और कम उत्पादक वातावरण बन सकता है।



प्रियंका सौरभ लेखक

राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष खेमे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जहां राज्यसभा में किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आया हो। दरअसल, यह मौका इसलिए सामने आया, क्योंकि सभापति के सदन में रुख से सभी विपक्षी दल नाखुश थे। विपक्ष का आरोप है कि सभापति हमेशा सत्तारूढ़ खेमे का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाते हैं। विपक्ष आसन को निष्पक्ष देखना चाहता है, लेकिन पिछली लोकसभा के बाद जब 18वीं लोकसभा में भी राज्यसभा में चीजे नहीं बदली तो पिछले सत्र में प्रस्ताव लाने की चर्चा चलकर विपक्ष ने कोई कड़ा कदम उठाने का संदेश देने की कोशिश की। संसद में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका तटस्थता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्त्व को उजागर करती है। संसदीय कार्यवाही की तटस्थता बनाए रखने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहस में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पीठासीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सांसदों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, बहस में भाग लेने के समान अवसर दिए जाएँ। निर्णयों में निष्पक्षता: अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय पक्षपातपूर्ण झुकाव के बिना संप्रतिपक्षी प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। अध्यक्ष को सरकार और विपक्ष के बीच संघर्षों में मध्यस्थता करनी चाहिए, शिष्टाचार बनाए रखने और रचनात्मक संवाद के लिए जगह बनानी चाहिए। एक तटस्थ पीठासीन अधिकारी संसद की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, लोकतांत्रिक बहस के लिए अनुकूल वातावरण

को बढ़ावा देता है। यदि अध्यक्ष को तटस्थ माना जाता है, तो संसदीय प्रणाली में विश्वास मजबूत होता है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि यू.के. जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में देखा जाता है। संसदीय संस्था की वैधता की रक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी को हमेशा निष्पक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है, तो इससे संसदीय कार्यवाही में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपात की धारणा के परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शत्रुतापूर्ण और कम उत्पादक



वातावरण बन सकता है। अध्यक्ष में कथित पक्षपात संसद की संस्था को ही कमजोर करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण हैं, तो संसद के भीतर जवाबदेही के तंत्र विकल हो सकते हैं, जिससे अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति की अनुमति मिलती है। यदि अध्यक्ष को किसी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हुए देखा जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता का मोहभंग हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से निर्णय लेने में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यू.के. संसद में, अध्यक्ष एक औपचारिक आधार संहिता का पालन करता है जो तटस्थता सुनिश्चित करता है, पक्षपात पर चिंताओं को दूर करने और संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए लंबे कार्यकाल को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय

भूमिकाओं में विश्वास, स्थिरता और तटस्थता बनाने की अनुमति मिल सकती है। जर्मन बुंडेस्टैग अध्यक्ष का निश्चित कार्यकाल दीर्घकालिक नेतृत्व स्थिरता सुनिश्चित करता है, राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भी पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की धारणा को कम करता है। अध्यक्ष के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र शुरू करने से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है और पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों को रोका जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हे संसदीय कार्यवाही की जटिलताओं को निष्पक्ष रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय लेने और संघर्ष समाधान पर केन्द्रित नेतृत्व प्रशिक्षण अध्यक्ष को तटस्थता बनाए रखते हुए राजनीतिक दबावों को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। संसदीय समितियों और चर्चाओं में द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देने से निर्णय लेने के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय

समितियों के भीतर अंतर-दलीय संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने से मतभेदों को दूर करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार और विपक्ष के बीच मध्यस्थता में अध्यक्ष तटस्थ रहें। संसदीय कार्यवाही की तटस्थता सुनिश्चित करने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्पष्ट दिशा-निर्देशों और लंबे कार्यकाल के माध्यम से निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। दरअसल, इसके जरिए विपक्ष कहीं न कहीं संसद के दोनों सदनों में आसन को एक संदेश देना चाह रहा है कि अगर आसन निष्पक्ष नहीं दिखता है तो विपक्ष अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएगा। पिछले सत्र में लोकसभा स्पीकर को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा थी।

वजूद पर अफसोस जाहिर करेगा बांग्लादेश

चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, आखिर कटेगा खरबूजा ही। भारतीय सैनिकों की कुर्बानियों से वजूद में आए मुल्क बांग्लादेश पर यह प्रसंग सटीक बैठ रहा है। बांग्लादेश सन्-1971 से पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हशरोख हसीनाह के परिवार तथा बांग्ला आवाम के प्रति पाक सेना का रवैया बेहद हिकारत भरा रहा है। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी ह्यअवामी लीगह ने प्रचंड जीत हासिल की थी। उस इंतखाबी जीत के लिए बांग्ला अखबार ह्यदैनिक इतिफाकह ने शेख मुजीब को ह्यशेर-ए-पाकिस्तानह के रूप में पेश कर दिया। शेख मुजीब की प्रचंड इंतखाबी जीत तथा दैनिक इतिफाक अखबार की कारकदगी पाक सैन्य हुम्परानों को नागवार गुजरी। सात मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ऐलान कर दिया था कि यदि पाक सेना जनादेश का एहताराम नहीं करेगी तो आवाम पूर्वी पाक को अपना अलग बांग्ला मुल्क बनाएगी। 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाक के सिपहसालार टिक्का खान ने अपरेशन सचं लाइट का ऐलान करके बांग्ला लोगों की कल्लोगारत का सिलसिला शुरू करके दैनिक इतिफाक का दफ्तर भी जला दिया। पाक सेना के शरादू से आक्रोषित होकर शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। 26 मार्च 1971 को पाक सेना ने शेख मुजीब को हिरासत में लेकर पाकिस्तान की फैसलाबाद जेल में भेज दिया। यहिया खान की सैन्य हुकूमत ने अपने जनरैल रहीमुदीन खान को शेख मुजीब के ट्रायल की कमान सौंपी। पाक सैन्य अदालत ने शेख मुजीबुर्रहमान को फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन तीन दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके एक जहालत भया गुस्ताखी को अंजाम दे दिया। पूर्वी मोर्चे पर गंगासागर में पाक फौज की मजबूत किलेबंदी पर भारतीय सेना की 14 गाड्सं बटालियन ने तीन दिसंबर 1971 को जोरदार हमला करके कई पाक सैनिकों को हलाक करके गंगासागर पर कब्जा कर लिया था। गंगासागर की जंग में पाक फौज की मोचाबंदी को ध्वस्त करने में अहम किरदार अदा करके सर्वोच्च बलिदान देने वाले लांस नायक अल्वर्ट एक्का को सेना ने ह्यपरमवीर चक्रहू (मरणोपरांत) से अलंकृत किया था। गंगासागर की उसी जंग में अदरथ साहस का परिचय देने वाले 14 गाड्सं के मेजर अशोक कुमार तारा को वीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय सेना के जोरदार पटवचार से पाक सेना युद्ध के 13वें दिन माफ्लूर होकर घुटनों के बल बैठ चुकी थी। पूर्वी पाक के कमांडर ह्यआमिर अब्दुल्ला खान नियोजी ने 16 दिसंबर 1971 को रामना रेसकोर्स मैदान में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तख्त कर दिए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को तकसीम करके पूर्वी पाक को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया था। बांग्ला आवाम जसन्-ए-आजादी के खूमारों में दूब चुकी थी। गंगासागर युद्ध की जीत के बाद मेजर अशोक तारा अपनी कंपनी के साथ ढाका हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात थे। मगर ढाका के धानमंडी कस्बे में शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना सहित उनके पूरे परिवार को एक पाक सैन्य दस्ता हिरासत में ले चुका था। उस मुश्किल वक्त में 17 दिसंबर 1971 को 14 गाड्सं के मेजर अशोक तारा ने मात्र दो सैनिकों के साथ जोखिम भरे सैन्य मिशन को अंजाम देकर शेख मुजीब के घर को घेर चुके पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करके शेख हसीना सहित बंग बंधु मुजीबुर्रहमान के पूरे परिवार को महफूज बचा लिया था। भारतीय सेना के खोफनाक हमलों से सद्मे में जा चुकी पाक सैन्य हुकूमत ने सात जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर्रहमान को पाकिस्तान की मियांवाली जेल से रिहा कर दिया। शेख मुजीब ने रावलापिंडी के चकलाला हवाई अड्डे से लंदन के लिए एवराज पकड़ी। जो नववरी 1971 को ढाका वापस पर शेख मुजीब कुछ वक्त के लिए नई दिल्ली में रहे। भारत की तत्कालीन हुकूमत ने शेख मुजीब का इस्तकबाल किया। बांग्लादेश पहुंचने पर शेख मुजीब ने रामना रेसकोर्स मैदान में बांग्ला आवाम से मुखातिब होकर एक मखसूस अंदाज में रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया। शेख मुजीब ने अशोक तारा को भी अपने घर बुलाकर सम्मानित किया था। सन् 2012 में बांग्लादेश की वजीर आजम रहते शेख हसीना ने कर्लन ह्यअशोक ताराहू को ह्यफ्रेड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्डहू से नवाजा था। 17 अप्रैल 1971 को शेख मुजीब बांग्लादेश के वजीर आजम बने। मगर बांग्लादेश की सेना ने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान को उनके परिवार के 17 सदस्यों सहित हलाक करके दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। गनीमत यह रही कि शेख हसीना व उनकी बहन शेख रिहाना उस वक्त जर्मनी में थीं।

कहां थमेगी तेजी से बढ़ती हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति

अप्रत्यक्ष तरीके से टीवी-संस्कृति भी समाज में हिंसा तथा बेचैनी फैलाने में भूमिका निभा रही है। आज का मनुष्य भोगी, भौतिकवादी, अति महत्वाकांक्षी तो है ही, टी वी पर दिखाये जाने वाले आकर्षक, लुभावने विज्ञापन, कार्यक्रम उसे और अधिक भौतिकवादी, भोगवादी बनाये जा रहे हैं। टी वी संस्कृति के ये लुभावने विज्ञापन व कार्यक्रम आदमी से इच्छा और आवश्यकता में अंतर करने का विवेक छीन रहे हैं, कर्मण्यता, कर्तव्यनिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं।



नूर संतोखपुरी लेखक

आज हमारे देश में ही नहीं, अपितु लगभग प्रत्येक छोटे-बड़े देशों में भिन्न-भिन्न कारणों से हिंसा और अपराधों से संबधित घटनाओं में वृद्धि हुई है। शायद ही धरती का कोई टुकड़ा ऐसा हो जो हिंसा, आतंक और भय से मुक्त हो। हम यहाँ अपने देश में तेजी से फैल व बढ़ रही है हिंसक तथा अपराधिक प्रवृत्तियों पर विचार करें। ऐसी प्रवृत्ति को प्रायः मनुष्य के अंदर फैली बेचैनी और अशांति से जोड़कर देखा जाता है। उच्च-शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, अल्प शिक्षित, अशिक्षित, धार्मिक, नास्तिक आदि कोई व्यक्ति भी आज ऐसा दिखाई नहीं देता, जो शांत, प्रसन्नचित्त तथा सरलचित्त हो। और तो और, युवा वर्ग के अतिरिक्त किशोर वर्ग के बच्चे भी आजकल मानसिक बोझ व परेशानियों के नीचे दबे दिखाई देते हैं। वे अनचाही, अनावश्यक घुटन व भय से धिरे कई कुण्डलों व मानसिक विकारों से ग्रस्त हो रहे हैं। यह सच है, आज जैसा सामाजिक वातावरण व ताना-बाना बना दिया गया है, उसमें बच्चों

का स्वाभाविक, प्राकृतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। भय, आतंक, और हिंसा से भरे वातावरण में पल-बढ़ रहे बच्चों से यह उम्मीद करना कि वे बड़े होकर सरल-हृदय व अहिंसक होंगे, बिल्कुल बेमानी है। आज समाज में बढ़ रही हिंसा व अपराध की समस्या के बारे में यदि हम गहराई से विचार करें, तो हम पाते हैं कि संगीन, गंभीर तथा अति विनोती हिंसक व अपराधिक कार्रवाइयों में अल्प-शिक्षित व बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति ज्यादा शामिल पाये जाते हैं। हिंसा और अपराध के मुख्यतया दो रूप होते हैं, एक स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म किस्म की अपराधिक कार्रवाइयों में शिक्षित व उच्चशिक्षित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इस तरह की घटनाएँ ज्यादातर विकसित देशों में देखने-सूनने को पहले मिलती थी अब तो ऐसी घटनाएँ भारत में भी आम होने लगी हैं। ऐसी घटनाओं में जानी नुकसान, माली नुकसान की अपेक्षा कम होता है या कभी होता ही नहीं है। हमारे समाज और

देश को जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, आतंकित व भयभीत कर रहा है, वो स्थूल किस्म की हिंसा और अपराध है। प्रयास: स्थूल किस्म की हिंसा दिशाहीन होती है, किंतु उद्देश्यहीन नहीं होती। भारत में जो छोटी-बड़ी हिंसक घटनाएँ घटित होती हैं, या हो रही है, उनके पीछे जो मुख्य कारण हैं, वे हैं- व्यक्तिगत रंजिश, वर्ग-जाति आधारित रंजिश, साम्प्रदायिक वैमनस्य धार्मिक-उन्माद, आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति आदि। वैसे तो हिंसक व अपराधिक तरीके से हुई आर्थिक क्षति को सहन करना या भुला देना कठिन होता है, लेकिन जिस परिवार का आधार स्तंभ, कमाई करने वाला सुरक्षा देने वाला व्यक्ति अप्राकृतिक ढंग से असमय कलत्र कर दिया जाय, तो उस परिवार के शेष लोगों की क्या दशा होती है, यह कल्पना से परे की बात नहीं है। सरकारी अधिकारियों, पुलिस, नेताओं व कानूनी अधीन करने से सामान्य जन को कितनी मदद मिल पाती है, सुरक्षा मिल पाती है, यह तथ्य भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आम देखावसी को अब अपने

देश में न्याय मिल पाना संभव नहीं रह गया है। यूं लगता है, पूरा राजनीतिक तंत्र, तथाकथित लोकतंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस और कानून केवल ऊंचे लोगों को, नेताओं-मंत्रियों, उच्च-अधिकारियों, धनवानों को लाभ पहुंचाने, सुरक्षा देने के लिए रह गए हैं। इससे जनता में अच्छे संकेत व संदेश नहीं जाते। एक बात और, भले ही अब घटलों-घोटालों से सीधे-सीधे कोई व्यक्ति-विशेष प्रभावित न होता हो, किंतु पूरे राज्य और देश की आर्थिक दशा तो प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है। ऐसे भ्रष्ट कुकृत्यों को भी संगीन गंभीर अपराधिक कार्रवाइयों की कोटि में रखा जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि हमारा देश में धर्म के नाम पर सितनी मानव क्षति हुई है, आर्थिक उन्नति पर विराम लगा है, इतना किसी अन्य कारण से नहीं हुआ है। विडम्बना यह है, कि भारत अभी भी साम्प्रदायिकता और धार्मिक उन्माद से मुक्त नहीं हो पाया है। क्या विज्ञान और दकियानुसी धर्म के ढकोसले साथ-साथ चलते

रहेंगे? क्या ऐसे में देश को पूर्ण उन्नति की ओर ले जाया जा सकेगा? धर्म की परिभाषा और स्वरूप वही नहीं है, जिसका वर्णन व गुणगान धार्मिक ग्रंथों-पोथियों में किया गया है। श्लोक पढ़ा, मन्त्रोच्चारण करना, पूजा-पाठ में रत रहना ही धार्मिक होने की कोई योग्यता नहीं है। धर्म, संस्कृति और अच्छे संस्कार सिखाते हैं सहिष्णु होना, देयावान, परंपकारी होना, सबके प्रति प्रेमभाव रखना, भ्रातृत्वभाव को बढ़ावा देना। परंतु आज के मनुष्य का मन विद्वेष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, संकीर्णता से भरा रहता है। सहनशीलता, दया, क्षमा करने की भावना बहुत कम दिखाई देती है। फलस्वरूप समाज में अपराधों और हिंसा में वृद्धि हुई है जरा-जरा सी बात पर, छोटे-छोटे मतभेदों पर कई लोग मरने-मारे पर आमदा हो जाते हैं। बहुत आश्चर्य होता है, जब हम पढ़ते या सुनते हैं, कि किसी छोटी सी बात पर एक या एक से अधिक हत्याएँ फलां जगह पर हो गईं। आज का मानव इतना कठोरचित्त और हिंसक हो चुका है कि वह अपने प्रति भी

सहनशील, संवेदनशील, सहृदय नहीं रहा। छोटी-छोटी बातों के लिये अपने प्राणों का दुश्मन बन बैठा है, और अपनी हत्या स्वयं कर लेता है। ऐसे में उससे अहिंसक व संवेदनशील होने की आशा करना बेकार है। वर्तमान समय में हमारे देश में डकैती, लूट, चोरी, अपहरण कर फिरोती मांगना, न मिलने पर हत्या कर देने की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनके पीछे मुख्य कारण हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, उपर्याप्त सुरक्षा उपाय, पुलिस तथा राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों और हत्यारों को संरक्षण देना, न्याय प्रणाली की त्रुटियाँ और आग पर धी डालने का काम यहाँ फैल रही पश्चिमी सभ्यता का नासूर कर रहा है। पश्चिमी सभ्यता का उद्देश्य ही यही है, खूब खाओ-पीओ, लपकाओ, मोज-मस्ती मनाओ, ऐश करो, एख्याशी करो। इन सब साधनों के लिये धन की आवश्यकता होती है। जब साधन जुट नहीं पाते, धन पास नहीं, तो अपराधी मनोवृत्ति वाले लोग धन प्राप्त करने हेतु चोरी-डकैती, हत्याएँ करते हैं।



डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 11 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के नव नियुक्त 26वें गवर्नर संचयन मल्होत्रा ने कहा कि वह महंगाई नियंत्रण और विकास दर के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए संवर्धन काम करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि यद्यपि 12 दिसंबर को घोषित आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर घटकर 5.8 फीसदी रह गई है, फिर भी यह रिजर्व बैंक के महंगाई के तब दायरे से अभी काफी ऊपर बनी हुई है। ऐसे में इस समय देश में धीमी विकास दर और महंगाई की चुनौती का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। बीते दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014-25

की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसके पहले अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस सुस्त विकास दर के परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना हाल ही में 6 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी नहीं करते हुए महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दर यानी नीतिगत दर (रेपो) में कमी बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो वह ब्याज दर है जिस पर कमांशियल बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू

सुस्त विकास और महंगाई की चुनौती

में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने केश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमांशियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा केश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी

में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने केश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमांशियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा केश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी

में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने केश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमांशियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा केश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी

में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने केश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमांशियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा केश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी

संक्षिप्त खबरें

फरीदाबाद : भय बनाने के लिए खरीदा हथियार, हुआ गिरफ्तार
 फरीदाबाद, 1 फरीदाबाद में अपराध शाखा सैक्टर-65 की टीम ने अवैध हथियार समेत बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देशी पिस्टल व एक जिंदा रौंद बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में बताया कि वह लोगों में भय बनाने के लिए देशी कट्टा खरीदकर लाया था। रविवार की रात अपराध शाखा सैक्टर-65 की टीम गस्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि आईएमटी चौक बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति अवैध हथियार लिए खड़ा है। जो किसी वारदात को अंजाम देगा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दुरूझ चौक बल्लभगढ़ से रितिक उर्फ कोची निवासी राहुल कॉलोनी नियर डीएवी कॉलेज फरीदाबाद काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शदर बल्लभगढ़ में केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपी से पता चला की वह नशा करने का आदि है। अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने गया था।

मिट्टी खनन का विरोध करने पर फायरिंग के आरोप में केस दर्ज
 ग्रेटर नोएडा, । जेवर क्षेत्र में खेत से मिट्टी खनन करने वाले माफिया गिरोह पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 17 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूलरूप से जेवर कस्बे के रहने वाले हरिओम सिंह दिल्ली के अशोक नगर में फिरोह के साथ रहते हैं। हरिओम सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी जेवर थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ रोड पर चार बीघा जमीन है। उनके खेत से 24-25 नवंबर को खनन माफिया ने करीब पांच फीट गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी चोरी कर ली। जब उनको इस मामले की जानकारी हुई तो वह एक दिसंबर को खेत पर पहुंचे तो खेत में गहरे गड्ढे थे। उन्होंने खनन करने वालों का विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की। वह बचकर भागा तो जेसीबी मशीन चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पिछले कई महीने से खेत की मिट्टी बेचने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने मिट्टी बेचने से मना कर दिया तो आरोपियों ने मिट्टी चोरी कर ली। इससे फसल भी नष्ट हो गई है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस की। जेवर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तारिफ, रिंजू, शिवनारायण, ललित, अमित, गोलू, पंकज, शकील, असद, आसिफ, पप्पू, फजनुव, फारूख, वकील, किशनपाल, हरिओम शर्मा, पुरोषोत्तम समेत दस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नोएडा के पोर्टल के संपादक व रिपोर्टर के खिलाफ फर्जी और भ्रामक खबर चलाने का आरोप, मुकदमा दर्ज
 नोएडा, । थाना बीटा-दो में एक उपनिरीक्षक ने एक पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन्होंने फर्जी और भ्रामक खबर चलाने का खतम किया है। थाना पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि उप निरीक्षक गणुल कुमार जो कि थाना बीटा-दो में तैनात हैं, उन्होंने को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 15 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ट्राई सिटी टुडे नामक एक यूट्यूब पर एक खबर चलाई गई। जिसमें कहा गया कि पुलिस पर जानलेवा हमला, हथियार तस्करों को पकड़ने गई टीम के एसओजी प्रभारी का सिर फोड़ा, कार्टेबल की टांग टोटी, दो और पुलिसकर्मी घायल। इस खबर में कहा गया कि टीम प्रभारी उत्तम कुमार के सिर में गंभीर चोट आई है, उन्हें 17 टिके लगें हैं। घायल को उपचार के लिए यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान वह पाया गया है कि यह एक फर्जी और भ्रामक खबर है, जिसे पुलिस को छवि धूमिल करने के लिए चलाया गया है।

नोएडा में बेंटी घटा होने पर विवाहिता को घर से निकाला, कुकर्मि पति समेत 8 पर मुकदमा दर्ज
 नोएडा, । एक महिला ने अपने पति पर ड्रग्स के नशे में कुकर्म करने, दहेज की मांग करने और न मिलने पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता ने डीसीपी महिला सुरक्षा के आदेश पर महिला थाना कासना में पति समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना कासना में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह नवंबर 2020 में पूर्वी दिल्ली निवासी एक युवक से हुआ था। शादी में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उस दहेज से खुश नहीं थे। वह अतिरिक्त दहेज में थार गाड़ी, 100 गज का प्लॉट और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर मारपीट व प्रताड़ित करने लगे। यही नहीं पति आम्र दिन ड्रग्स के नशे में उसके साथ कुकर्म करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करता था। पीड़िता ने अक्टूबर 2021 में एक पुत्री को जन्म दिया।

संभल में कई मस्जिदों पर अवैध सब स्टेशन बनाकर फ्री कनेक्शन बांटे गए थे : सीएम योगी

प्रातः किरण, संवाददाता
 लखनऊ, । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में विपक्षियों की खिंचाई करते हुए कहा कि हम सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन चला रहा है, लेकिन संभल में धार्मिक स्थल से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। वहां कई मस्जिद ऐसी पाई गईं, जहां अवैध सब स्टेशन बनाकर फ्री में कनेक्शन बांटे गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पावर कारपोरेशन का लाइन लॉस 30 से कम है, लेकिन संभल के दीपासराय और मीरासराय मोहल्ले में लाइन लॉस 78 और 82 फीसदी है। यह देश के संसाधनों पर लूट है। प्रशासन कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो उसे चोर कहेगे और यदि प्रशासन चोरी पकड़ ले तो कहेंगे कि अत्याचार है। सीएम योगी ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आती है तो बुरा लगता है। जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। आप (विपक्ष) भी यही बुराई कर रहे हैं। आपकी पाई गईं, जहां अवैध सब स्टेशन बनाकर फ्री में कनेक्शन बांटे गए थे। इससे लोकतंत्र की व्यवस्था कमजोर होती है। किसी भी मुस्लिम, अन्य मत-मजहब के त्योहारों के दौरान समस्या नहीं होती तो हिंदू पर्व



के दौरान यदि किसी ने समस्या खड़ी की तो सरकार सख्ती से निपटेगी। न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रशासन का

बड़ी कृपा कर दी, लेकिन, 22 कुओं को किसने पाट दिया। आखिर मूर्तियां कैसे मिल रही हैं। नोटिस से परेशानी क्यों हो रही है। संभल में तुर्क व पठान का विवाद चल रहा है। शफीकुर्रहमान बक (सपा के पूर्व सांसद-अव स्मृतिशेष) खुद को भारत का नागरिक नहीं, बल्कि बाबर की संतान कहते थे। आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम-कृष्ण, बुद्ध की परंपरा को। भारत में राम-कृष्ण व बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। अल्लामा इकबाल की नज्म को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा

हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता यहां एक कविता सुन रहे थे। सच को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो चले गए। एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो पहले कुछ पंक्तियां लिखता है और बाद में उसका चरित्र कैसे बदल जाता है। अल्लामा इकबाल ही हैं जो कहते थेः ह्यूमनलिज्म है हम वतन है, सारा जहां हमारा, चीन-ओ-अरब हमारा हिन्दोस्तां हमारा, तौहीदकी अमानत सीनों में है हमारे, दुनिया के बुत-कदों में पहला वो घर खुदा का, तेगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, मरारिब की वादियों में जूजी अजां हमारी, बातिल से दबने वाले ऐ

आसमां नहीं हम, ऐ गुलस्तान-ए-उंदुसुस वो दिन है याद तुझका, ऐ मौज-ए-दजला तू भी पहचानती है हमको, ऐ अर्ज-ए-पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार-ए-कारवां है मीर-ए-हिजाज अपना, इकबाल का तराना बांग-ए-दरा है गोया, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा। सीएम योगी ने पूछा कि क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं। वो खुद को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गाति ही कराएंगे। इकबाल की एक कविता को यहां पढ़कर और वास्तविक सच से आप धूल डालकर छुपा नहीं सकते हैं।

हम तो राम-कृष्ण और बुद्ध पर विश्वास करते हैं और उन्हीं को आदर्श मानकर कार्य करते हैं : सीएम योगी

प्रातः किरण, संवाददाता
 लखनऊ, । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको बाबा साहब आंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकारों को देखना चाहिए। अलग-अलग पृष्ठों का अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें राम भी नजर आएंगे और कृष्ण भी, लंका दहन के उपरांत बजरंग बली भी नजर आएंगे और ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। सीएम योगी ने कहा कि नेता विरोधी दल को बोलना चाहता हूँ कि बुद्ध ने करुणा और मैत्री का उपदेश उस कालखंड में दिया था, जब विदेशी हमले शुरू हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही राम ने कहा था द्धर्मसिंघर हीन करहुँ महि भुज उठाई एन कृष्ण है, ह उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था ह्यपरित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम ह्यहम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास

सफाफत ही था, लेकिन, चिंता मत करिए, अगली बार होगा। सीसाऊ में भी बाल-बाल बच गए। कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पर लोग चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं, इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी तो वह भी यही बात बोलेंगे। आप सभी से कहूँगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। सीएम योगी ने पूर्व में प्रदेश में हुए दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि दंगों के कारण प्रदेश का माहौल लगातार खराब हुआ। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें लोगों को सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास है। उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में छाया हल्का कोहरा, कोल्ड वेव से आगयी तापमान में गिरावट

प्रातः किरण, संवाददाता
 नोएडा, । एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। सोमवार सुबह हल्का कोहरा दिखाई दिया। मौसम विभाग की मांनें तो मंगलवार से घने कोहरे से एनसीआर के लोगों का सामना होने की उम्मीद है। जिसके बाद न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। इसके साथ ही कोल्ड वेव के कारण न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जाने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह का तापमान 5 डिग्री था और दिन का तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ-साथ कभी बादल और कभी धूप का सामना लोग करेंगे। 17 दिसंबर से मौसम विभाग ने यह सूचना जारी की है कि कोल्ड वेव चलने की वजह से न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट



दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर को कोल्ड वेव की शुरुआत होगी और अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 19 दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि 20 दिसंबर को घना कोहरा एनसीआर में छाया रहेगा और उससे अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद अचानक मौसम फिर बदलेगा और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, समाजवादी पार्टी उठाएगी संभल का मुद्दा

प्रातः किरण, संवाददाता
 लखनऊ, । उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सदन में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रदेश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, विशेषकर संभल की स्थिति पर चिंता जताएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों के लिए सपा सरकार को जवाबदेह ठहराएगी। इससे सदन में भारी हंगामे की आशंका है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि हम सांप्रदायिक घटनाओं और दंगों के माध्यम से सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों के बारे में सरकार को नोटिस देंगे। हम इन घटनाओं के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। सत्र के दौरान भारी हंगामा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, उन्होंने संभल में मंदिर मिलने संबंधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखी और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन, मंदिर अब क्यों मिला? क्या इसकी खूबाई की गई थी या यह पहले से ही वहां था और हाल ही में इसकी पहचान की गई? विपक्ष के नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर तरह के अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी समुदायों में सभी तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ेगी और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी, जैसे कि बेरोजगारी, किसानों की शिकायत या कोई अन्य अन्याय। सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह मुख्य मुद्दों और वास्तविक चुनौतियों से ध्यान भटक रही है। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इनसे ध्यान हटाने के लिए सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 25 करोड़ लोगों वाले राज्य की चिंताओं का जवाब देने से सरकार क्यों डर रही है? माता प्रसाद पांडे ने समय से पहले चुनाव कराने के विचार के प्रति भी समाजवादी पार्टी के विरोध को भी दोहराया, जबकि मायावती ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

जेल में बंद किसानों को अगर नहीं छोड़ा गया तो, बीकेयू 23 को लेगा बड़ा फैसला

प्रातः किरण, संवाददाता
 ग्रेटर नोएडा, । गौतमबुद्ध नगर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को लुक्सर जेल में बंद कर दिया गया है। अभी तक इन किसानों की रिहाई नहीं हुई है इसमें सुखबीर खलीफा समेत कई संगठन के किसान नेता शामिल हैं। अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रविवार को एक बैठक की है जिसमें उसने फैसला लिया है कि अगर 22 दिसंबर तक इन्हें नहीं छोड़ा गया तो 23 दिसंबर यानी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा फैसला लेगा। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने भी अपने जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले के कम से कम एक थाने में गौतम बुद्ध नगर के 129 आंदोलनकारी किसान

फरीदाबाद : घर से गहने चुराने की आरोपी नौकरानी गिरफ्तार

प्रातः किरण संवाददाता,
 फरीदाबाद, । घर से आभूषण चोरी करने की आरोपी नौकरानी को पुलिस चौकी सेक्टर-21डी की टीम ने गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अनिल निवासी सेक्टर-21डी ने एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 12 दिसंबर की रात वह परिवार सहित रिश्तेदारी में गया था। घर पर नौकरानी रामा देवी निवासी गांव बसंतपुर जिला पिलीभीत उत्तर प्रदेश को छोड़कर गए थे। जब घर आए तो देखा कि अलमारी के लॉक टूटे हुए थे और नकदी तथा आभूषण चोरी हो चुके थे, जिसके संबंध में थाना एनआईटी में मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी टीम ने अपने गुप्त सूत्रों व तकनीकी माध्यम से महिला आरोपी को गांव आदमपुर जिला बडोत उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। महिला आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि अभी 20 नवम्बर को नौकरनी पर आई थी। उसने लालच में आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें उसने सोने के गले का नेकलैस, दो जोड़ी झुमके, एक सेट पेंडेंट, एक कड़ा तथा एक सफेद मोतियों का हार चोरी किया था। चोरीशुदा सामान को पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। महिला को पूछताछ के बाद अरवलत में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महिला नवम्बर से शिकायतकर्ता के घर में काम कर रही थी और शिकायतकर्ता द्वारा महिला की वैरिफिकेशन भी नहीं कराई थी। इसलिए बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने, घरेलू नौकर/सहायक के रूप में रखने से पहले उसकी पुलिस वैरिफिकेशन अवश्य कराए।



फरीदाबाद, । घर से आभूषण चोरी करने की आरोपी नौकरानी को पुलिस चौकी सेक्टर-21डी की टीम ने गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अनिल निवासी सेक्टर-21डी ने एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 12 दिसंबर की रात वह परिवार सहित रिश्तेदारी में गया था। घर पर नौकरानी रामा देवी निवासी गांव बसंतपुर जिला पिलीभीत उत्तर प्रदेश को छोड़कर गए थे। जब घर आए तो देखा कि अलमारी के लॉक टूटे हुए थे और नकदी तथा आभूषण चोरी हो चुके थे, जिसके संबंध में थाना एनआईटी में मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी टीम ने अपने गुप्त सूत्रों व तकनीकी माध्यम से महिला आरोपी को गांव आदमपुर जिला बडोत उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। महिला आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि अभी 20 नवम्बर को नौकरनी पर आई थी। उसने लालच में आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें उसने सोने के गले का नेकलैस, दो जोड़ी झुमके, एक सेट पेंडेंट, एक कड़ा तथा एक सफेद मोतियों का हार चोरी किया था। चोरीशुदा सामान को पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। महिला को पूछताछ के बाद अरवलत में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महिला नवम्बर से शिकायतकर्ता के घर में काम कर रही थी और शिकायतकर्ता द्वारा महिला की वैरिफिकेशन भी नहीं कराई थी। इसलिए बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने, घरेलू नौकर/सहायक के रूप में रखने से पहले उसकी पुलिस वैरिफिकेशन अवश्य कराए।

गौंगस्टर एक्ट में वांछित इनामी भूमाफिया गिरफ्तार

प्रातः किरण संवाददाता
 ग्रेटर नोएडा, । सेक्टर इकोटेक-3 पुलिस ने फरार भूमाफिया को गिरफ्तार किया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वह गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। सेक्टर इकोटेक-3 कोतवाली प्रभारी के मुताबिक पकड़े गए माफिया की पहचान विजय यादव निवासी ग्राम अहमदाबाद कसौरा, थाना बनिघाटैर, जिला मुरादाबाद के रूप में हुई। वह वर्तमान में गंगा जमुना हिंडन एन्क्लेव सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में रह रहा था। पुलिस ने पांच महीने पहले भूमाफिया गिरोह के सरनाग समेत आठ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। इस गैंग पर हिंडन के डबू क्षेत्र में भी अवैध रूप से प्लांटिंग करने का आरोप लगा था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की है। भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। गैंग लीडर और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में कई मुकदमे दर्ज हैं।

प्रातः किरण संवाददाता
 फरीदाबाद, । पूरे भारत वर्ष में पुरुषों के लिए कार्य कर रही संस्था टीम पुरुष आयोग ने सोमवार को फरीदाबाद के बोके चौक से नीलम चौक के बीच एआई इंजिनियर अतुल सुभाष की आत्मा की शांति के लिए कैडल मार्च निकाला। दो मिमट का मौन रखकर अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि अर्पित की। टीम पुरुष आयोग के संस्थापक अध्यक्ष नरेश मेंहदीरता ने अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद एक बार फिर केन्द्र सरकार से महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मर्द को भी दर्द नहीं होता, लेकिन यह कहावत है, मर्द को भी दर्द होता है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने कितनी प्रताड़ना सही है वह केवल वहीं पुरुष जान सकता है तो इन केसों में फंस प्रताड़ित हो रहा है। 84 हजार रूपए मासिक वेतन पाते वाला केवल 10 लाख रूपए ससुराल पक्ष से दहेज में मांगता है। यह कितना बड़ा सच है कि यह पूरा देश जानता है। मेंहदीरता ने पीड़ित पुरुषों से अपील की है कि मरना किसी समस्या का हल नहीं, मरना बिल्कुल नहीं, मरने की नौबत आए तो कोर्ट में जाकर बोल दो जेल भेजे पैसे नहीं, सिर्फ एक महीना साल का गुजारा भत्ता में होती सजा जो मानने से बेहतर है कि सजा चुगते। अगर किसी भी पीड़ित पुरुष को कोई समस्या आती है कि वह बिना झिझक उनसे 24 घंटे सम्पर्क कर सकता है। कैडल मार्च निकालकर प्रदर्शन करने वालों में समाजसेविका अनुराधा, एडवोकेट रायेश खटाना, नव प्रयास सेवा संगठन के अध्यक्ष सुनील यादव, एडवोकेट रविन्द्र सिद्ध, संजीव सिद्ध, संत राम, कृष्ण कृण, गिरजेश शर्मा, जय शर्मा और अन्य के अलावा टीम पुरुष आयोग के सदस्य शामिल है।

नोएडा में गैंगस्टर एक्ट में 25 हजारी इनामी बदमाश समेत 14 पर कार्रवाई, एक गिरफ्तार

प्रातः किरण संवाददाता
 नोएडा, । थाना इकोटेक-3, थाना फेज-तीन पुलिस तथा थाना सूरजपुर पुलिस ने लूटपाट, डकैती चोरी सहित अन्य विभिन्न मामलों में सक्रिय 14 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार थाना इकोटेक-3 पुलिस ने लोकल इंटीलजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र सुरेश यादव को सुनपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। यह बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना फेज-तीन पुलिस ने 8 बदमाशों पर गैंगस्टर

ने बताया कि ये बदमाश संगठित गिरोह बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। सक्रिय गिरोह द्वारा घटना करने से क्षेत्र में भय और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा गैंग बनाकर लूटपाट और डकैती करने वाले गैंग के पांच लोगों के खिलाफ थाना सूरजपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाना पुलिस ने नीरज प्रजापति उर्फ भोलू (गैंग लीडर) तथा गैंग के सदस्य बृजेश शर्मा, विशु उर्फ बंटी त्यागी, मानव नेगी और उमेश कुमार को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। उन्होंने बताया कि ये लोग गैंग बनाकर लूटपाट करते हैं। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने गैंग बनाकर लूटपाट की दर्जनों वारदात की है। इन लोगों ने एक कार चालक को बंधक बनाकर लूटपाट की थी।

पलवल में खेल मंत्री ने बीस दिव्यांगों को बांटी बैटरी चलित ट्राई साइकिल

प्रातः किरण संवाददाता,
 पलवल, । नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जिला प्रशासन और जिला रेडक्रॉस दिव्यांगजनों को खेल राज्य मंत्री गौरव दिवस पर आयोजित शिविर में 75 लोगों देने के लिए चयनित किया गया था, और कृत्रिम उपकरण प्रदान कर दिए साइकिल इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनके छोटे भाई आदित्य गौतम की जिला रेडक्रॉस सोसाइटी पलवल के के सीएसआर के सहयोग से रूतदान, वितरण के लिए जांच शिविर आयोजित को निशुल्क ट्राई साइकिल देने के लिए को और ट्राई साइकिल वितरित कर दी हिस्सा है जो हमें जीवन में पॉजीटिव कहा कि आगे भी पलवल जिला में इस प्रकार के शिविरो का आयोजन किया जाता रहेगा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने एलमको कम्पनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसआर के सहयोग की सराहना भी की। इस मौके पर दिव्यांग जनों ने भी खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको यह बैटरी चलित तिपहिया साइकिल मिलने से आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी और उनकी जीवन शैली काफी आसान बनेगी। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के सचिव बिजेंद्र सौरोंत, अंजलि भयाना नीतू सिंह, समाजसेवी अजनीत कालड़ा, कनुज खुराना, परमिंदर सिंह, अभिषेक देशवाल, धर्मेन्द्र दीक्षित,पंकज विरमानी और गुणेशन सहित रैड क्रॉस कर्मचारी व दिव्यांगजन मौजूद रहे।



इन्डोर स्टेडियम में आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट पलवल सोसाइटी पलवल के तत्वावधान में चिन्हित 20 और गौतम ने वितरित की। गौरतलब है पहले विश्व दिव्यांग को बैटरी चलित तिपहिया साइकिल और कृत्रिम उपकरण जिनमें से 55 लोगों को यह बैटरी चलित तिपहिया साइकिल गए थे और बचे हुए 20 लोगों को बैटरीचलित तिपहिया वितरित की गई है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा स्मृति में आदित्य गौतम मेमोरियल द्वारा जिला प्रशासन और तत्वाधान में एलमको कम्पनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्वास्थ्य जांच और दिव्यांग जनों के लिए ट्राई साइकिल किया गया था। इस शिविर के माध्यम से 75 दिव्यांग जनों चयनित किया गया था, जिनमें से आज बचे हुए 20 लोगों गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज का वह रहना व जीवन को संघर्ष के साथ जीना सिखाते हैं। उन्होंने

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने हरे निशान में पहुंचने की

कोशिश भी की, लेकिन थोड़ी ही दूर बाद बिकवाली का दबाव बनने की वजह से दोनों सूचकांक लगातार गिरते चले गए। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.18 प्रतिशत और निफ्टी 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से श्रीराम फाइनेंस,

रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रामिंस इंडस्ट्रीज, सिप्ला और बजाज फाइनेंस के शेयर 0.73 प्रतिशत से लेकर 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटेन कंपनी, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल और टीसीएस के शेयर 1.31 प्रतिशत से लेकर 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक

के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,345 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,695 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 650 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 11 शेयर लाल के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 19 शेयर बिकवाली के दबाव

में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान में और 31 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज 132.81 अंक की कमजोरी के साथ 82,000.31 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक उछल कर 82,105.65 अंक तक

पहुंचा, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से इसकी गिरावट बढ़ती चली गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण ये सूचकांक गिर कर 81,814.04 अंक तक पहुंच गया। हालांकि पहले आधे घंटे के कारोबार के बाद खरीदारों ने दोबारा जोर लगाया, जिससे इस सूचकांक की चाल में सुधार होता हुआ नजर आने लगा।

संक्षिप्त खबरें

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। डाउज जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल सांकेतिक बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ कारोबार होता रहा। एशियाई बाजारों में भी आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान दबाव बना रहा। डाउज जॉन्स लगातार सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह एस&प 500 इंडेक्स ने 0.02 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 6,050.03 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। दूसरी ओर, नैस्डैक 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,923.52 अंक के स्तर पर बंद हुआ। डाउज जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक तेजी के साथ 43,831.28 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,300.33 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसडी इंडेक्स ने 0.15 प्रतिशत फिसल कर 7,409.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएक्स इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 20,405.92 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशिया के 9 बाजारों में से 5 के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 4 सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक तेजी के साथ 24,782 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

भारत ने चीन से खिलौनों का आयात 80 फीसदी कम किया

नई दिल्ली। केवल वार वर्षों में ही भारत ने चीन से खिलौनों के आयात में 80 फीसदी की कटौती कर ली है जो एक ऐसा देश है जो लंबे समय से वैश्विक बाजार पर हावी रहा है। हाई टैरिफ और सख्त गुणवत्ता जांच के मिश्रण ने इसमें मदद की। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल केपेन का असर भारतीय खिलौना बाजार पर साफ दिखने लगा है। इस अभियान के चलते भारत की खिलौने के आयात में चीन पर निर्भरता में भारी कमी आई है। वित्त वर्ष 2020 में भारत ने 23.5 करोड़ डॉलर के चीनी खिलौने आयात किए थे जो अब घटकर वित्त वर्ष 2024 में 4.1 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं। यह दिखाता है कि भारत अब खिलौनों के आयातक देश से निर्यातक देश बन चुका है। भारत में बने खिलौनों की मांग दुनियाभर में बढ़ रही है। चीन-प्लास-वन पॉलिसी के तहत बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत से खिलौने खरीद रही हैं। कंपनियों जैसे हैसब्रो, मैटल, स्पिन मास्टर, और अलर्जी लॉर्निंग सेंटर जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने भारत से खिलौने खरीदने की शुरुआत की है। साथ ही कंपनियों जैसे झूम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इकास ने भी चीन से अपना फोकस भारत की ओर थिपट कर लिया है।

सराफा बाजार में मामूली गिरावट, सोने-चांदी की कीमत घटी

नई दिल्ली। घरेलू सराफा बाजार में आज मामूली गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोने के भाव में गिरावट आने से देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 केरेट सोना आज 78,030 रुपये से लेकर 77,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 केरेट सोना 71,540 रुपये से लेकर 71,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह ही चांदी के भाव में गिरावट आने के कारण दिल्ली सराफा बाजार में इसकी कीमत गिर कर 92,400 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 केरेट सोना आज 78,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 केरेट सोने की कीमत 71,540 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 केरेट सोना 77,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 केरेट सोना 71,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 केरेट सोने की रिटेल कीमत 77,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 केरेट सोने की कीमत 71,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य बीमा:

आसान क्लेम के लिए पूर्व बीमारियों की दें जानकारी

सूचना नहीं देना करार का उल्लंघन

नई दिल्ली, एजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में स्वास्थ्य बीमा मददगार होता है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपकी और कंपनी की ओर से दी गई जानकारीयां स्पष्ट हों। स्पष्ट जानकारीयों के अभाव में बीमा कंपनियां क्लेम खारिज कर देती हैं। इन्हीं जानकारियों में से एक है...प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज (पीडीडी) यानी पहले से मौजूद बीमारियां। पीडीडी का अर्थ है...एसे कोई भी मेडिकल स्थिति, बीमारी या चोट, जिसका स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले इलाज किया गया हो या जिसके लक्षण मौजूद हों। प्री-एग्जिस्टिंग बीमारियां जोखिम आकलन व कवरेज शर्तों को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।

तथा हे प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोई भी मेडिकल स्थिति जिसका स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने से 48 महीने



पहले इलाज किया गया हो, प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पीडीडी मानी जाती है। इनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर पूर्व में हो चुके ऑपरेशन/इलाज भी शामिल हैं।

उदाहरण के तौर पर

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने से 48 महीने पहले अगर किसी व्यक्ति का हाइपरटेंशन का इलाज किया गया हो, तो इसे पीडीडी माना

जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का तीन साल पहले घुटने का ऑपरेशन हुआ हो, तो वह भी पीडीडी होगा।

इराडा के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति का 10 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो और पिछले 48 महीनों में उसे कोई परेशानी नहीं हुई हो या व्यक्ति को इसके लिए कोई दवा नहीं लेनी पड़ी हो, तो उसे बीमा जोखिम के मूल्यांकन की शर्तों के तहत पीडीडी नहीं माना जाएगा।

इसलिए खुलासा जरूरी

पॉलिसी खरीदने के दौरान पहले से मौजूद बीमारियों की जानकारी जरूर दें। बेहतर कवरेज पाने में आसानी होगी। कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। खारिज नहीं होगा क्लेम : इन बीमारियों के बारे में पहले से बताने पर आसानी से क्लेम मिल जाएगा। जानकारी छुपाने पर कंपनी न सिर्फ क्लेम खारिज कर सकती है, बल्कि पूरी पॉलिसी रद्द कर सकती है।

मिलेगा बेहतर कवरेज : पीडीडी का खुलासा कर पॉलिसीधारक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे अधिक कवरेज प्राप्त होता है। कई कंपनियां पीडीडी के लिए विशेष कवरेज भी देती हैं।

सही सूचना नहीं देना करार का उल्लंघन

भले ही आपको लगे कि आपकी स्थिति दवाओं या इलाज से नियंत्रण में है, फिर भी इसे पीडीडी माना जाएगा। पॉलिसी आवेदन में गलत जानकारी देना बीमा करार का उल्लंघन है और इससे कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं। बीमा कंपनी को दावों की जांच का अधिकार होता है। पहले से मौजूद बीमारियों के पता चलने पर क्लेम खारिज होने के अलावा अन्य नुकसान भी हो सकते हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के सबसे

अमीर अरवपति और एशिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ब्लूमबर्ग के 100 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर, भारत के सबसे अमीर लोगों ने अपनी दौलत में उछल देखी। टॉप-20 ने जनवरी 2024 से 67.3 अरब डॉलर जोड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा टेक मुगल शिव नादर (10.8 अरब डॉलर) और सावित्री जिंदल (10.1 अरब डॉलर) है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि अडानी और अंबानी दोनों इसके एलीट सेंटीबिलेनियर्स क्लब से बाहर हैं, जिसमें 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले लोग शामिल हैं।

अंबानी को झटका

रिपोर्ट के अनुसार अंबानी की व्यक्तिगत संपत्ति को झटका लगा है। क्योंकि, उनके ग्रुप के एनर्जी और रिटेल बिजनेस ने कमजोर प्रदर्शन किया। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, निवेशक बढ़ते कर्ज और उनकी संपत्ति को लेकर चिंतित हैं। जुलाई में जब बेटे अनंत की शादी हुई थी तब नेटवर्थ 120.8 अरब डॉलर था और अब 13 दिसंबर तक घटकर 96.7 अरब डॉलर हो गई है। अडानी के लिए मुसीबतें अधिक गहरी हैं। उनके ग्रुप को अमेरिका के न्याय विभाग की जांच से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो अनिश्चितता के विस्तार के रूप में किसी भी गति को रोक सकता है। बीबीआई के अनुसार,

जमकर कर रहे थे खर्च लेकिन नहीं भरा इनकम टैक्स, सरकार ने वसूले 37,000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, एजेंसी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 20 महीनों में ऐसे लोगों से 37,000 करोड़ वसूले हैं, जो टेक्सबल इनकम होने के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि हार्ड-वैल्यू ट्रांजेक्शंस के एनालिसिस के बाद ऐसे लोगों की पहचान की। यह खर्च नकद में किया गया था। इन लोगों ने 2019-20 के दौरान रत्न और आभूषणों की खरीद, प्रॉपर्टी और लजरी होलिडेज पर जमकर खर्च किया था।



नवंबर में घोषित जांच ने अडानी की कुल संपत्ति को जून में 122.3 अरब डॉलर से घटाकर अब 82.1 अरब डॉलर कर दिया है। इससे पहले अडानी के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट भारी पड़ चुकी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी प्रशासन के कारण अनिश्चितता और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के स्टारलैंक के भारत के उपग्रह बॉडबैंड बाजार में संभावित प्रवेश से भारत के दूरसंचार खिलाड़ियों को भी खतरा हो सकता है।

वॉलमार्ट वाल्टन ने ब्लूमबर्ग के सबसे अमीर परिवारों की 2024 सूची में 432.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहला स्थान हासिल किया। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क का व्यक्तिगत नेटवर्थ और मध्य पूर्व के शाही परिवारों से भी अधिक है।

वचन की सलाह : नए साल से कम दर पर होम लोन मिलने की आस, एक फीसदी तक घट सकता है ब्याज

नई दिल्ली, एजेंसी। होम लोन लेने वालों के लिए यह साल ऊंची ब्याज दरों वाला रहा है। हालांकि, कर्ज अब सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि नए साल में ब्याज दर घट सकती है। इसकी शुरुआत फरवरी से होने की संभावना है। इससे आपको राहत मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में कटौती की है। इससे बैंकों को कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा मिल सकेगा। इस कदम से कर्ज दरों में कमी आने की उम्मीद है। इससे कर्ज लेने को और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में आरबीआई की मासिक नीति समिति की बैठक में दरों को जस का तस रखा गया है। लेकिन, जापानी बैंकर नोमुरा को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला अब शुरू हो सकता है। फरवरी में इसमें कम-से-कम 0.25 फीसदी कटौती की उम्मीद है। जब दरें घटने का सिलसिला चालू होगा तो यह एक फीसदी तक घट सकती है। यानी जो रपो दर अभी 6.5 फीसदी पर है, वह 5.5 फीसदी पर आ सकती है। ऐसे में बैंक भी दरों को घटाने पर मजबूर होंगे। हालांकि, इसके साथ जमाकर्ताओं को नुकसान होगा, क्योंकि कर्ज के साथ जमा पर भी ब्याज दरें घटेंगी। ऐसे में होम लोन लेने वालों को अगले पूरे साल में ब्याज पर एक फीसदी का फायदा हो सकता है।

विस्तार किया, रोजगार सृजन इस दौरान एक नए शिखर पर पहुंच गया।

नियोजकों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों को जोड़ा, जबकि मई 2024 के बाद से काम के बैकलॉग में सबसे तेज गति से वृद्धि हुई। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री इनेस लैम के अनुसार इस फ्लैश रिलीज में, दिसंबर में हेडलाइन मैनुफैक्चरिंग पीएमआई में मामूली वृद्धि मुख्य रूप से मौजूदा उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार में वृद्धि के कारण हुई। नए घरेलू ऑर्डर में विस्तार तेज हुआ, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति में तेजी का संकेत देता है। इसके अलावा, इनपुट लागत में निरंतर वृद्धि ने निर्माताओं को बिक्री मूल्य बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आउटपुट मूल्य सूचकांक फरवरी 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

जुलाई के बाद से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ऑर्डर ने वृद्धि में योगदान दिया। नए निर्यात ऑर्डर पांच महीनों में सबसे तेज दर से बढ़े, जिसमें

निर्यात वृद्धि में विनिर्माण ने सेवा क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया।

लगातार दूसरे महीने कारोबारी आशावाद मजबूत हुआ, जो सितंबर 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सकारात्मक मांग की उम्मीदों और मजबूत ग्राहक संबंधों ने निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं दोनों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाया। सितंबर के 15 महीने के उच्चतम स्तर से लागत दबाव थोड़ा कम हुआ, जो दीर्घकालिक औसत के अनुरूप है। हालांकि, खाद्य, माल ढुलाई और श्रम जैसी वस्तुओं के लिए इनपुट लागत में वृद्धि जारी रही।

लागत दबाव कम होने के बावजूद, फर्मों ने बिक्री मूल्य में वृद्धि हासिल की, हालांकि नवंबर के 12 साल के उच्चतम स्तर की तुलना में यह धीमी रही। दिसंबर में निर्माताओं की इनपुट खरीद में तेजी दिखी, जिसका फायदा वैंडर्स के बेहतर प्रदर्शन से मिला। प्री-प्रोडक्शन इन्वेंट्री में वृद्धि हुई, लेकिन तैयार माल के स्टॉक में कमी आई क्योंकि कंपनियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया।

ग्रे मार्केट में एक आईपीओ खुलने से पहले ही मचा रहा धूम

ग्रे मार्केट में इसका भाव आसमान पर है और अच्छे रिटर्न की उम्मीद है

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर मार्केट में इस समय एसएमई आईपीओ छाप हुए हैं। ज्यादातर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग जबरदस्त हो रही है। आज सोमवार को धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस के आईपीओ की लिस्टिंग 90 फीसदी प्रीमियम पर हुई। अगर आप इस आईपीओ में निवेश से चूक गए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। एक एसएमई आईपीओ ग्रे मार्केट में धूम मचा रहा है। एसएमई सेगमेंट से एनएसडीएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ निवेश के लिए कल यानी 17 दिसंबर से खुल रहा है। यह आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में धूम मचा रहा है। इसका भाव करीब दोगुना हो गया है। ग्रे मार्केट के ट्रेड के मुताबिक इसकी लिस्टिंग 90 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर हो सकती है।

तथा है प्राइस बैंड

इस आईपीओ का इश्यू साइज 10.01 करोड़ रुपये है। कंपनी 28.60 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कोई भी शेयर ओएफएफएस के तहत जारी नहीं किया जाएगा।

यह इश्यू 17 दिसंबर को खुलेगा और 19 को बंद हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इसका प्राइस बैंड 33 से 35 रुपये प्रति शेयर के बीच है। एक लॉट में 4 हजार शेयर हैं। इसके लिए 1.40 लाख रुपये निवेश करने होंगे। लिस्टिंग 24 दिसंबर को हो सकती है।



यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इस कंपनी का मुख्य काम मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, रेंजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना है। कंपनी ब्रिज भी बनाती है। यह आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। साथ ही यह उत्तराखंड पेपजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है।

तथा है ग्रे मार्केट में स्थिति

इस कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में छाया हुआ है। सोमवार दोपहर एक बजे तक इसका जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) 33 रुपये है। ग्रे मार्केट की इस स्थिति के मुताबिक यह आईपीओ करीब 94 फीसदी प्रीमियम के साथ 68 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। ऐसा होने पर निवेशकों की रकम एक ही दिन में करीब दोगुनी हो सकती है।

बॉम्बे डाइंग की कमान संभाल सकते हैं जेह वाडिया, 288 साल पुराने ग्रुप में हुई वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रुप के संरक्षक नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे जहांगीर वाडिया ग्रुप की कंपनियों के बोर्ड में फिर से शामिल हो गए हैं। तीन साल के अंतराल के बाद वह कारोबार में वापस लौटे हैं। जहांगीर ने मार्च 2021 में तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने अचानक वाडिया बोर्ड से इस्तीफा देकर अपने परिवार के साथ लंदन में बस गए थे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि यह लंदन में 51 वर्षीय जहांगीर और 81 वर्षीय नुस्ली वाडिया के बीच हुई चर्चा के बाद हुआ है। इस चर्चा का उद्देश्य बेटे को वापस लौटाने, ग्रुप संचालन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने और अपने पिता की कुछ जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी करना था।

नुस्ली वाडिया करीब 60 साल से ग्रुप की कमान संभाल रहे हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि पेशेवरों के साथ काम करने के लिए परिवार के भीतर से युवा उद्यमी उर्जा को शामिल करने का समय आ गया है। जहांगीर का परिवार लंदन में रहता है, लेकिन अब वह कंपनियों का नेतृत्व करने के लिए भारत में काफी समय बिताएंगे। वाडिया ग्रुप ने इस अपडेट पर कोई टिप्पणी नहीं की। छोटे



वाडिया के साथ मिलकर काम कर चुके एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, यह वास्तव में ग्रुप और व्यवसाय के लिए एक अच्छी बात है कि वरिष्ठ वाडिया अपने बेटे को वापस लाने में सक्षम हैं। जेह एक स्पष्ट रणनीतिक विचारक हैं और उनके पास बेहतरीन विश्लेषणात्मक कौशल हैं। उनके पास व्यावसायिक स्थिति को अच्छी तरह से समझने और एक योजना बनाने की असाधारण क्षमता है।

अधिकारियों ने कहा कि जहांगीर को ब्रिटानिया में एक गैर-कार्यकारी भूमिका में फिर से नियुक्त किया गया है और उनसे प्रबंध निदेशक के रूप में बॉम्बे डाइंग का प्रभार संभालने की उम्मीद है। उन्होंने 2021 तक प्रबंध निदेशक के रूप में गौएयर का नेतृत्व किया था, जो वर्तमान में दिवालियापन समाधान से गुजर रहा है।

संक्षिप्त खबरें

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इरफान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। मोहम्मद आमिर और इमाम वसीम के बाद अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इरफान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा, मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्रिकेट करियर के दौरान मिले प्रेम, उत्साह और अविस्मरणीय यादों के लिए अपने साथियों, कोचों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस खेल का समर्थन और जश्न मनाना जारी रखूंगा जिसने मुझे सब कुछ दिया है। इरफान 36 घंटों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। 142 वर्षीय इरफान लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं, हाल ही में वे प्रेसिडेंट कप में खान रिर्सव लैबोरेटरीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इरफान ने पाकिस्तान के लिए चार टेस्ट मैच, 60 एकदिवसीय और 22 टी-20 मैच खेले हैं। उन्होंने चार टेस्ट मैचों में 10 विकेट, 60 एकदिवसीय मैचों में 83 और टी-20 में 16 विकेट लिए हैं।

राशिद खान की जिम्बाब्वे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टेस्ट टीम में वापसी

काबुल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टेस्ट सीरीज के लिए टीम का कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को बनाया गया है। टेस्ट टीम में लंबे समय बाद स्टाट स्पिनर राशिद खान की वापसी हुई है। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट मैच साल 2021 में खेला था। वह अभी तक 5 टेस्ट मैच खेले चुके हैं, जिसमें उन्होंने 34 विकेट अपने नाम किए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में 7 अन्वैकड प्लेयर्स को मौका मिला है। इनमें ऑलराउंडर इस्मत आलम, स्पिनर जहीर शहजाद और तेज गेंदबाज बशीर अहमद अफगान शामिल हैं। इन तीनों ने ही घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसका अब उन्हें इनाम मिला है। अजमतुल्लाह उमरजई, फरीद अहमद मलिक, रियाज हसन और सेदि कुल्लाह अटल को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इन प्लेयर्स ने भी अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। इन चारों को न्यूजीलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए स्क्वाड में मौका मिला था, जो बारिश की वजह से बिना गेंद घेरे ही रह गया था। एसीबी के अंतरिम मुख्य सेलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा कि राशिद खान की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, जो हमारे लिए टेस्ट फॉर्म में एक आशाजनक संकेत है। प्लेयर्स ने अच्छी तैयारी की है और इसकी हमने निगारानी भी की है। इसके बाद टीम का चयन किया गया है। टीम में इस्मत आलम, बशीर अहमद और जहीर शहजाद सहित कई नए चेहरे शामिल हैं, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली दूनार्मेंट में अच्छा खेल दिखाया है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दोनों टेस्ट बुलावायों में खेले जाएंगे। पहला मुकामला 26 दिसंबर को होगा। वहीं दूसरा मैच 2 जनवरी 2025 से खेला जाएगा।

जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अफगानिस्तानी टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह (उप-कप्तान), इकराम अलीखाइल (विकेटकीपर), अफसर जजई (विकेटकीपर), रियाज हसन, सेदि कुल्लाह अटल, अब्दुल मलिक, बहीर शाह महबूब, इस्मत आलम, अजमतुल्लाह उमरजई, जहीर खान, जिया उर रहमान अकबर, जहीर शहजाद, राशिद खान, यामीन अहमदजई, बशीर अहमद अफगान, नवीद जादरान और फरीद अहमद मलिक।

नए विश्व शतरंज चैंपियन बने गुकेश का चेन्नई में जोरदार स्वागत

चेन्नई। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन, 18 वर्षीय डी गुकेश का सोमवार को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशंसकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सिंगापुर से लौटने पर, जहां उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। गुकेश महान विश्वनाथन आनंद के नवशेकदम पर चलते हुए यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय बन गए। युवा ग्रैंडमास्टर के आगमन पर उत्साहपूर्ण भीड़, पारंपरिक नर्तक और शतरंज चैंपियनों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध वेलाम्मल विद्यालय के छात्रों के साथ एक जीवंत प्रदर्शन देखा गया। तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अधिकारी गुकेश को सम्मानित करने के लिए मौजूद थे, जो इस शानदार स्वागत से बेहद प्रभावित थे। गुकेश ने हवाई अड्डे के बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहां आकर बहुत खुश हूँ। मैं समर्थन देख सकता हूँ और यह भारत के लिए क्या मायने रखता है। आगे लोग अद्वैत हैं। आपने मुझे बहुत ऊर्जा दी है। सिंगापुर में गुकेश की जीत किसी असाधारण से कम नहीं थी। उन्होंने 12 दिवसीय को समाप्त हुए 14 गेम के तनावपूर्ण मुकामलों में लिरेन को हराया। निर्णायक क्षण 14वें गेम में आया, जब लिरेन ने अंतिम गेम में गलती की, जिससे गुकेश ने खिताब हासिल किया और 18वें निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। गुकेश की जीत को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस दौरान एक रिकॉर्ड भी तोड़ा वे दिग्गज गैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। जैसे ही गुकेश हवाई अड्डे से बाहर निकले, उन्हें माला पहनाई गई और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया। उनकी एलबीसी और 18 एट 18 टैगलाइन से सजी एक विशेष रूप से डिजाइन की गई कार उन्हें उनके निवास तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। एसडीएटी अधिकारियों ने उन्हें शॉल भेंट की और प्रशंसकों ने युवा चैंपियन की उपलब्धि का जश्न मनाते हुए बैनर दिखाए।

ऑस्ट्रेलिया में बुमराह के 50 विकेट लेने के बाद एलन बॉर्डर ने सल्लाह

ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान एलन बॉर्डर ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज मेल्लक मार्शल जिताना ही उंचा दर्जा दिया है और कहा है कि उन्होंने बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं देखा है, जो शायद ही कभी विकेट लिए बिना गेंदबाजी करता हो। 2024 में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन को जारी रखते हुए, जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव के बाद ऑस्ट्रेलिया में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब उन्होंने चल रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिवस मिगल स्टार्क को आउट किया। उल्लेखनीय है कि 20वीं सदी की शुरुआत से, ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 20 विकेट लेने वाले किसी भी गेंदबाज ने बुमराह के असाधारण 17.82 से बेहतर गेंदबाजी औसत नहीं बनाए रखा है। बुमराह ने 6-7 के शानदार आंकड़े हासिल किए, जिससे मेजबान टीम ने सोमवार को गाबा टेस्ट के तीसरे दिन अपने अंतिम तीन विकेट सिर्फ 40 रन पर जंवा दिए।

गिलेस्पी ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के कोच के पद से क्यों इस्तीफा दिया

प्रातः किरण / संवाददाता

नई दिल्ली। जेसन गिलेस्पी ने खुलासा किया है कि मैच से पहले प्लेइंग इलेवन के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ उनका कोई स्पष्ट संवाद नहीं था और उन्होंने कहा कि रेड-बॉल कोच के रूप में उनकी भूमिका केवल कैचों को मारने तक सीमित रह गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज गिलेस्पी ने अप्रैल में दो साल के लिए पाकिस्तान के रेड-बॉल कोच का पद संभाला था और अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की थी। लेकिन गिलेस्पी ने पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान की टेस्ट श्रृंखला से पहले अपने पद से

इस्तीफा दे दिया। कीब जावेद को अब पाकिस्तान का अंतरिम टेस्ट कोच नियुक्त किया गया है और अक्टूबर में गैरी कस्टन के पद से हटने के बाद वह ट्वाइट-बॉल की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मुझे लगा कि मैं मूल रूप से कैच पकड़ रहा हूँ, और मैच की सुबह बस इतना ही था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान एबीसी ग्रेडस्टैंड शो में गिलेस्पी ने कहा, आप सभी हितवाचकों, उदाहरण के लिए चयनकर्ताओं के साथ स्पष्ट संवाद करने में सक्षम होना चाहते हैं, ताकि मैच से पहले या कम से कम मैच से एक दिन पहले मुख्य कोच के रूप में टीम के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के बीच संवाद स्पष्ट नहीं था, जबकि उच्च प्रदर्शन कोच टिम नीलसन को बर्खास्त करने और चयन समिति में उनकी भूमिका कम करने सहित, अंततः उन्हें अपनी भूमिका से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गिलेस्पी ने कहा, मैंने इस पद को खुले दिल से

संभाला, मैं यह बात वास्तव में स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि पाकिस्तान ने बहुत कम समय में कई कोचों को बदल दिया है, लेकिन मैंने अपना मामला आगे रखा और बताया कि मुझे कैसे लगा कि मैं मदद कर सकता हूँ। आप ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां खिलाड़ी तनावमुक्त लेकिन केंद्रित हों और बाहर जाकर अपना काम करें और उन्हें बाहर जाकर खेलने की आजादी दें। मुझे लगा कि लाल गेंद में, टेस्ट टीम में, हम ऐसा करने में बहुत हद तक सही थे, जिसका नतीजा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के रूप में सामने आया। इसलिए जब मैंने नौकरी संभाली थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, मैं शुक्रवार को विमान

में नहीं चढ़ा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा यह थी कि एक मुख्य कोच के रूप में, आप अपने नियोक्ता के साथ स्पष्ट संवाद करना पसंद करते हैं। मैं हार्ड-परफॉर्मिंग कोच न रखने के फैसले से पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्होंने कहा, टिम नीलसन को बताया गया कि उनकी सेवाओं की अब जरूरत नहीं है और मुझे इस बारे में किसी से कोई संवाद नहीं मिला, और मुझे लगा कि पिछले कुछ महीनों में हुई कई अन्य चीजों के बाद, शायद यही वह क्षण था जब मैंने सोचा, ठीक है, मुझे सच में यकीन नहीं है कि वे वास्तव में मुझे यह काम करना चाहते हैं या नहीं। गिलेस्पी ने कप्तान शान मसूद के साथ अपने बेहतरीन संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया

और कहा कि नीलसन के काम के बारे में फीडबैक सकारात्मक रहा है। मैंने टेस्ट कप्तान शान मसूद के साथ वास्तव में घनिष्ठ संबंध विकसित किए, और मुझे लगा कि हम निश्चित रूप से सही दिशा में जा रहे हैं और चीजें वास्तव में अच्छी चल रही हैं। मुझे जो भी फीडबैक मिला या पीसीबी को जो भी फीडबैक मिला, वह यह था कि टिम अपनी भूमिका में कितने प्रभावी रहे हैं और खिलाड़ी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वे उन्हें दादाजी कहते थे और लड़कों के बीच कुछ अच्छी हंसी-मजाक भी होती थी। शान और मैंने इस बारे में और खिलाड़ियों के साथ इस बारे में बहुत बात की कि आप एक टेस्ट मैच खेलें या 100, यह अप्रासंगिक है।

गाबा में कंगारू गेंदबाजों के साथ बारिश ने की टीम इंडिया की हालत खराब

17 ओवर में 51 रन और 4 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के पास तीसरे दिन 394 रनों की लीड

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में जारी तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन समाप्त हो गया है। तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया 4 विकेट पर 51 रन बनाकर मुश्किल स्थिति में हैं। पारी टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के साथ-साथ बारिश ने भी खूब खेल बिगाड़ा। टीम इंडिया ने खेल के पहले घंटे में ऑस्ट्रेलिया की पारी को 445 रन पर समेट दिया था। इसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हुई तो कंगारू गेंदबाजों ने ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा उठाते हुए शुरुआती विकेट झटकने में सफल रहे। इस तरह टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी में अभी भी 394 रन पीछे है।

भारत के लिए खेल के तीसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ने मोर्चा संभाले हुए हैं। रोहित शर्मा 6 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं जबकि राहुल ने मजबूती के साथ बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंद में 33 रन बना लिए। इससे पहले टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल (4), शुभमन गिल (1), विराट कोहली (3) और ऋषभ पंत (9) दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए।

बारिश के कारण खेल रहा प्रभावित

ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के पहले दिन से बारिश खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। खेल के पहले दिन सिर्फ



13.2 ओवर ही डाले जा सके थे। हालांकि, दूसरे दिन का खेल बिना किसी स्कावट का पूरा हुआ था, लेकिन तीसरे दिन फिर से बारिश ने अपना रंग दिखाया और टीम इंडिया का खेल खराब किया। बारिश के कारण पहली बार खेल

को तब रोका गया था जब ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिरा था। इसके टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 445 रन के स्कोर पर समेट दिया। पहले सेशन में ही बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने

सिर्फ 6 रन के स्कोर पर अपना दो विकेट गंवा दिया। टीम को तीसरा झटका 22 रन पर लगा। तीसरे विकेट के बाद फिर से बारिश शुरू गई और इसके बाद लंच ब्रेक की घोषणा कर दी गई। लंचे ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल शुरू हुआ लेकिन ऋषभ पंत के विकेट के बाद फिर से बारिश के कारण खेल को रोक दिया गया।

टी ब्रेक के बाद सिर्फ 2.5 ओवर का हुआ खेल

तीन बार बारिश की वजह से खेल रुकने के बाद एक बार फिर टी ब्रेक के बाद खेल को शुरू करने का फैसला किया गया। टी ब्रेक से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 14.1 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 44 रन बनाए थे, लेकिन खेल शुरू होने के कुछ देर बाद एक बार फिर से खेल को खराब रौशनी के कारण रोकना पड़ा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 ओवर डाले में जिसमें टीम इंडिया ने 7 रन बनाए। इस तरह टीम इंडिया ने खेल के तीसरे दिन की समाप्ति तक 17 ओवर में बिना कोई और नुकसान के 51 रन बना लिए हैं।

मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल के दौरान टीवी अंपायर को मांगनी पड़ी माफी

वाइड गेंद पर हो गए कन्फ्यूज



मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के खिलाफ संयुक्त मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल के दौरान टीवी अंपायर को एक बड़ी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। दरअसल अंपायर ने एक गेंद को वाइड दिया था जिसपर गेंदबाजी कर रही मुंबई टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिस्कु ले लिया। थर्ड अंपायर ने टीवी एरिबे देखने के बाद कहा कि क्योंकि रजत पाटीदार गेंद की

दिशा की ओर गए थे तो ऐसे में यह वाइड नहीं है। अंपायर का यह फैसला आने से मग्न के कप्तान रजत पाटीदार नाराज हो गए। उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर से बात की और एक बार फिर से रिस्के चैक करने को कहा। पाटीदार का कहना था कि गेंद पॉपिंग क्रीज से बाहर पिच हुई है। टीवी अंपायर केंएन अनंतपद्मानाभन ने जब दोबारा रिस्के

देखा तो उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया। शार्दूल ठाकुर की गेंद को वाइड करार दिया गया। अनंतपद्मानाभन को आधिकारिक प्रसारण पर यह कहते हुए सुना गया- बेहद खेद है, गेंद पॉपिंग क्रीज के बाहर पिच हुई थी। मैंने वह नहीं देखा।

फाइनल मुकामला मुंबई ने जीता- बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को फाइनल मुकामला मुंबई और मध्यप्रदेश के बीच खेला गया था, जिसे मुंबई ने अपने मजबूत मध्यक्रम की बदैलत अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश के पास खिताब जीतने का पहला मौका था लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश ने पहले खेले हुए कप्तान रजत पाटीदार के 81 रनों की बदैलत 174 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी मुंबई ने 18वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। मुंबई के लिए सूर्यकुमार यादव और शेड्डी का बल्ला चला। अजिंक्य रहाणे ने 37 रन बनाए। वह 469 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने।

इंग्लैंड को लगा झटका, टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को फिर हैमस्ट्रिंग में लगी चोट

हैमिल्टन (न्यूजीलैंड) (एजेंसी)। इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा जब उसके टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दौरान एक बार फिर हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। इंग्लैंड क्रिकेट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पुष्टि की कि स्टोक्स को टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच के तीसरे दिन हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। स्टोक्स सेडन पार्क में न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रवींद्र को गेंदबाजी कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग को कसकर पकड़ लिया और उपचार के लिए मैदान से बाहर चले गए। अनुभवी ऑलराउंडर पूरे साल हैमस्ट्रिंग की चोटों से जूझते रहे हैं। अगस्त में द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। चोट के कारण वह अक्टूबर में मुलतान में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट से बाहर हो गए थे। चोट की प्रकृति अभी भी अज्ञात है, और यह देखा जा चुका है कि स्टोक्स दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करने आएं या नहीं।

स्टोक्स ने 12.2 ओवर फेंके जिसमें 4.20 की इकॉनमी से 52 रन दिए और दो विकेट चटकाए। दूसरी पारी में विल यंग और विलियम ओ-रुवेके को आउट किया। पहली पारी में उन्होंने 24 ओवर फेंके, छह मंडन किए और 3.80 की इकॉनमी से 91 रन दिए। मैट हेनरी पहली पारी में उनका एकमात्र शिकार था। स्टोक्स के आउट होने पर न्यूजीलैंड ने कुल 453 रन बनाए। पहली पारी में 204 रनों की बढ़त के साथ कीवी टीम ने मेहमानों को 658 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने पारी की शुरुआत में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों जैक क्रॉली और बेन डव्केट को खो दिया। मैट हेनरी ने क्रॉले (5) को स्टंप के सामने पिच करके इसका अनुसरण किया। तीसरे दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर 18/2 हो गया और जीत से अभी भी 640 रन दूर था।



महिला कमेंटेटर ईशा गुहा ने कहा- 'सबसे मूल्यवान प्राइमेट' चौतरफा विरोध

बुमराह पर 'नस्लीय टिप्पणी'!

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कमेंट्री के दौरान जसप्रीत बुमराह को नस्लीय रूप से असंवैधानशील टिप्पणी का शिकार होना पड़ा। उक्त टिप्पणी इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर ईशा गुहा ने की। कमेंट्री बॉक्स में नाथन मैकस्वीनी और उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली बुमराह की प्रशंसा कर रहे थे। ली ने कहा कि बुमराह, आज- 5 ओवर, 2-41 तो, यही लहजा है और आप पूर्व कप्तान से यही चाहते हैं। इस पर गुहा ने बुमराह को 'सबसे मूल्यवान प्राइमेट' बोल दिया। ईशा को इस टिप्पणी से इसलिए विवाद शुरू हो गया क्योंकि प्राइमेट शब्द अक्सर मनुष्य-सदृश जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैस को यह

बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई प्रशंसकों ने 2008 के कुख्यात 'मकीगेट' घोटाले की तुलना की, जहां हरभजन सिंह पर एड्यू साइमंड्स ने कथित तौर पर उन्हें 'बंदर' कहने का आरोप लगाया था। इस बीच, गेंदबाजी कोच मोनें मोर्कल ने रविवार को स्वीकार किया कि भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को रोकने में विफल रहे। हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने टीम इंडिया के खिलाफ शतक लगाए जिससे ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 400 से ज्यादा रन बना चुकी



है। मोर्कल ने दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वह (हेड) काफी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए गेंद, अगर आप इसे 50 से 80 ओवर तक देखें, यहां तक कि आखिरी गेम में भी, जहां हम काम रह जाते हैं, थोड़ा सा (रन) लीक करते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें बेहतर होने की जरूरत है। मोर्कल ने कहा कि सुबह गेंद के साथ सबसे पहले, हम बहुत अच्छे थे, 70 रन पर 3 विकेट, लेकिन दो विश्व स्तरीय खिलाड़ी शानदार रहे। स्मिथ लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकता है और रन भी बना सकता है। उन्होंने (स्मिथ और हेड) वहां साझेदारी की और नरम गेंद से हम पर दबाव डाल दिया।

साउथेम्प्टन ने मैनेजर रसेल मार्टिन को बर्खास्त किया

साउथेम्प्टन। रविवार को टोटनहम हॉटस्पर से 5-0 की हार के बाद साउथेम्प्टन ने अपने मैनेजर रसेल मार्टिन को हटा दिया। इस समय साउथेम्प्टन प्रीमियर लीग तालिका में सबसे नीचे है। जब तक नया स्थायी मैनेजर नहीं चुन लिया जाता, तब तक टीम की कप्तान अंतरिम आधार पर अंडर-21 मैनेजर साइमन रस्क के हाथ में होगी। साउथेम्प्टन क्लब के एक बयान में कहा गया, बॉर्ड ने रसेल और उनकी टीम का समर्थन किया और हमारे अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है।

गावस्कर की संघर्ष कर रहे कोहली को सलाह : सचिन की 2004 की पारी से प्रेरणा लें

ब्रिस्बेन, एजेंसी। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को सलाह दी है कि वे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर अपनी हाल की परेशानियों से निपटने के लिए 2004 में सिडनी में सचिन तेंदुलकर की शानदार पारी से प्रेरणा लें। कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पथ में शतक के साथ

की थी, तब से लड़खड़ा रहे हैं और अपनी पिछली चार पारियों में 15 रन से अधिक रन बनाने में विफल रहे हैं। गाबा में तीसरे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 3 रन पर आउट होने से ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की अनुशासित लाइन-लेंथ के सामने उनकी कमजोरी उजागर हुई। कोहली के आउट होने के बाद प्रसारकों से बात करते हुए, गावस्कर ने अनुकूलन और

मानसिक अनुशासन दिखाने के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने 2003-04 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान सिडनी में तेंदुलकर की ऐतिहासिक नाबाद 241 रन की पारी के साथ तुलना की गावस्कर ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अभ्यास अलग है, लेकिन मैदान में जो होता है वह अलग है। मानसिकता पूरी तरह से अलग है। अभ्यास में जो होता है, आप जानते

हैं, अगर आप खराब शांत खेलते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन मैच में, अगर आप आउट हो जाते हैं, तो आप आउट हो जाते हैं। कोहली ने भारत की पारी को अस्थिर शुरुआत के बाद स्थिर करने के इरादे से मैदान में कदम रखा। हालांकि, जोश हेजलेवुड ने कोहली की उत्सुकता का फायदा उठाया, उन्हें एक वाइड डिलीवरी खेलने के लिए प्रेरित किया।

